



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—टैप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584) 534  
No. 584)नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 1, 2006/कार्तिक 10, 1928  
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2006/KARTIKA 10, 1928

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2006

सा.का.नि. 686(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय पुनर्वासि परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुनर्वासि परिषद् अधिनियम, 1992 (1992 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूची में संशोधन करने के लिए उसमें निम्नलिखित अर्हताएं सम्मिलित करती हो, अर्थात् :-

2. उक्त अधिनियम में, विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

“अनुसूची”

(देखिये धारा 11)

भारत में विश्वविद्यालयों या शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई मान्यताप्राप्त पुनर्वासि अर्हताएं

क्रम सं.	विश्वविद्यालय/संस्था	पाठ्यक्रम का नाम	अर्हता	मान्यता की वैधता/टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5
<b>I. श्रवण विज्ञानी और वाणी चिकित्सक</b>				
1.	अखिल भारतीय वाणी और श्रवण संस्थान, मानस गंगोत्री, मेसूर-570006	(i) बी.एससी. (वाणी और श्रवण) (3 वर्ष)	डिग्री	अधिसूचना सं. का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के द्वारा अधिसूचित
		(ii) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटरनशिप सहित 4 वर्षीय)	डिग्री	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 और 98-99
		(iii) एम. एससी. (वाणी और श्रवण विज्ञान)	स्नातकोत्तर डिग्री	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
		(iv) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातकोत्तर (2 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिग्री	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, और 00-01
		(v) एम.एससी. (श्रवण विज्ञान) (2 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिग्री	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05 और 05-06

		vi) एम.एससी. ( वाणी भाषा विकृति विज्ञान ) ( 2 वर्ष )	स्नातकोत्तर डिग्री	2003-04, 04-05, 05-06 और 06-07  2003-04, 04-05, 05-06, 06- 07, 07-08, 08-09 और 09-10
2.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता किशनचंद मार्ग बान्द्रा(वेस्ट) मुम्बई - 400 050	i) बी.एससी ( वाणी और श्रवण विज्ञान ) ( 3 वर्ष )  ii) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय )  iii) एम.एससी ( वाक वाणी और श्रवण ) ( 2 वर्ष )  iv) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय )	डिग्री  डिग्री  स्नातकोत्तर डिग्री  स्नातकोत्तर डिग्री	अधिसूचना सं० का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित  1996-97, 97-98, 98-99, 99-00 और 00-01  2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05- 06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11.  1996-97, 97- 98, 98-99, 99-00 और 00-01  2001-02, 02-03, 03-04, 04- 05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09- 10 और 10-11.
3.	आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान (समवत विश्वविद्यालय) सेक्टर 12, चंडीगढ़	i) बी.एससी (वाणी और श्रवण विज्ञान) ( 3 वर्ष )  ii) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में डिग्री- (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय )  iii) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में डिग्री-मास्टर . ( 2 वर्ष )	डिग्री  डिग्री  स्नातकोत्तर डिग्री	अधिसूचना सं० का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 और 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02- 03, 03-04, 04-05 और 05-06  1996-97, 2000- 01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 और 05-06

4.	टोपीवाला राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान कालेज मार्फत डीन, बी.वाई. एल. चैस्टेबल अस्पताल, डा0 ए0एल0 नायर रोड, मुम्बई- 400 008	<p>i) बी.एससी. (श्रवण विज्ञान और वाणी वैशेषी) (3 वर्ष)</p> <p>ii) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटरनशिप सहित 4 वर्षीय)</p> <p>iii) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में मास्टर- डिग्री (2 वर्ष)</p>	<p>डिग्री</p> <p>डिग्री</p> <p>स्नातकोत्तर डिग्री</p>	<p>अधिसूचना सं0 का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित</p> <p>1995-96, 96-97, 97-98, 98- 99 और 99-00</p> <p>2000-01, 01-02, 02-03, 03- 04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10</p> <p>1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07- 08, 08-09 और 09-10</p>
5.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (समस्त विश्वविद्यालय), अंसारी नगर नई दिल्ली ।	i) बी.एससी. (वाणी और श्रवण विज्ञान में (आनर्स) (3 वर्ष)	डिग्री	<p>अधिसूचना सं0 का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 द्वारा अधिसूचित</p> <p>1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99- 00, 00-01, 01-02 और 02-03</p>
6.	अली यावर खान राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, एस आर सी एन आई एम एन) मनोविकास नगर पो. आ. बोवनपल्ली, सिकन्दराबाद - 500 009.	<p>i) बी.एससी. श्रवण भाषा और वाणी) (3 वर्ष)</p> <p>ii) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटरनशिप सहित 4 वर्षीय)</p> <p>iii) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में मास्टर-डिग्री (2 वर्ष)</p>	<p>डिग्री</p> <p>डिग्री</p> <p>स्नातकोत्तर डिग्री</p>	<p>1997-98, 98-99, 99-00, 00-01 और 01-02</p> <p>2002-03, 03-04, 04-05, 05- 06 और 06-07</p> <p>2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 और 07-08</p>

7.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, कस्तूरबा निकेतन, (पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र) लाजपत नगर- II नई दिल्ली - 110 024.	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक ) इंटरशिप सहित 4 वर्ष	डिग्री		2002-03, 03-04, 04-05 और 05-06
8.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, ( पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र ) एन आई ओ एच कैम्पस, बोन हुगली कोलकाता - 700 090	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (2 वर्ष ) ii) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातकोत्तर (इंटरशिप सहित 2 वर्षीय )	डिग्री  स्नातकोत्तर डिग्री		2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07  2005-06 और 06-07.
9.	स्वीकार विकलांग पुनर्वास संस्थान, उपकार सर्किल, सिकन्दराबाद - 500 003	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटरशिप सहित 4 वर्षीय ) ii) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (2 वर्ष)	डिग्री  स्नातकोत्तर डिग्री		2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10  2003-04, 04-05, 05-06, 06-07 और 07-08
10.	वाणी और श्रवण संस्थान, हेन्नूर रोड, बैंगलूर - 560 084.	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटरशिप सहित 4 वर्षीय ) ii) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातकोत्तर (2 वर्ष)	डिग्री  स्नातकोत्तर डिग्री		1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 और 07-08  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
11.	वाणी और श्रवण कालेज, स्वास्थ्य विज्ञान की संस्थान डा0 एम0वी0 सेट्टी मैमोरियल ट्रस्ट, मंगलौर- 575001	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटरशिप सहित 4 वर्षीय ) ii) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातकोत्तर (2 वर्ष)	डिग्री  स्नातकोत्तर डिग्री		1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07  2002-03, 03-04, 04-05 और 05-06

12.	सम्बद्ध स्वास्थ्य विज्ञान कालेज, मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (समवत विश्वविद्यालय) मणिपाल - 679523	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय ) ii) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातकोत्तर (2 वर्ष)	डिग्री  स्नातकोत्तर डिग्री	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07  2002-03, 03-04, 04-05 और 05-06
13.	इंस्टीट्यूट ऑफ़ कम्युनिकेटिव एंड कोगनिटीव न्यूरोसाइंसेज, कावालप्परा, शोरानूर, केरल - 679 523.	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय ) ii) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातकोत्तर (2 वर्ष)	डिग्री  स्नातकोत्तर डिग्री	2001-02 , 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07  2006-07
14.	विकलांगों के लिए एडब्ल्यूएच संस्थान, पोस्ट बाक्स नं०. 59, 17/194 ए, एम. स्क्वायर कापेलक्स, पावमणि रोड, कालीकट - 673	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय )	डिग्री	2002-03, 03-04, 04-05 और 05-06
15.	राष्ट्रीय वाणी और श्रवण संस्थान, पालसे रोड, पूजापपुरा, त्रिवेन्द्रम - 695 012.	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय )	डिग्री	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
16.	जे एस एस महाविद्यापीठ जे एस एस संस्थान वाणी और श्रवण जे एस एस डेन्टल कॉलेज कैम्पस, श्री शिवराथरेसक्कनगर, मैसूर - 570 015.	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय )	डिग्री	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
17.	मार थामा कॉलेज ऑफ़ स्पेशल एज्युकेशन, ग्रेडियाकदा, कासरगोड, चेरकला चेंगल्ला पो.आ. कासरगोड- 671 541, केरल कन्नूर यूनिवर्सिटी, कन्नूर, केरल	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय )	डिग्री	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
18.	हेलन केल्लर इंस्टीट्यूट ऑफ़ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फार दि डिसेब्लेड चिल्ड्रन, बैंक कालोनी, रामकृष्णपुरम, सिकन्दराबाद - 500 056	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय )	डिग्री	2002-03, 04-05, 05-06 और 06-07

19.	इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एज्युकेशन एंड रिसर्च, हेल्थ इंस्टीच्यूट रोड, केन्द्रीय जेल के समीप, पटना	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय )	डिग्री	1999-00, 00-01, 01-02 और 02-03
20.	इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, एन2/41, आईआरसी विलेज नयापल्ली भुवनेश्वर - 751 015	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय )	डिग्री	2001-02, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 और 07-08.
21.	विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन (डीमीड यूनिवर्सिटी) ऑडोलॉजी और स्पीच पैथोलॉजी विभाग, वीएमआरएफ-डीयू आरुपदाई वीटू मेडिकल कालेज कैम्पस, किरुमामबक्काम, पांडिचेरी - 607 402	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय )	डिग्री	2004-05, 05-06 और 06-07
22.	रिसर्च एज्युकेशन और ऑडियोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, डुंडलोड हाउस, सिविल लाइन्स, जयपुर-302 019	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय )	डिग्री	2003-04, 04-05, 05-06 और 06-07
23.	श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज और रिसर्च इंस्टीच्यूट, 1 रामचन्द्र नगर, पोरूर, चेन्नई - 600 116	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय ) ii) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातकोत्तर (2 वर्ष)	डिग्री स्नातकोत्तर डिग्री	1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09 - 10 2004-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 09-10
24.	कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मणिपाल एकादमी ऑफ हाइअर-एज्युकेशन, लाइट हाउस हिल रोड, पोस्ट बॉक्स सं0 53, मंगलौर -575 001	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय )	डिग्री	2005-06 और 06-07
25.	सम्बद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संकाय, विनायक मिशन-अनुसंधान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालयवत, विनायक मिशन किरुबानंद, वरियार मेडिकल कालेज कैम्पस, संकरी मुख्य मार्ग (रा0 राजमार्ग-47), अरियानूर, सलेम - 636308 तमिलनाडु ।	i) श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक (इंटर्नशिप सहित 4 वर्षीय )	डिग्री	2006-07

\* विज्ञान स्नातक (वाणी और श्रवण), विज्ञान (श्रवण विज्ञान और वाणी पुनर्वास) में स्नातक, विज्ञान स्नातक (श्रवण भाषा और वाणी ) पाठ्यक्रम श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक समतुल्य हैं ।

विज्ञान स्नातकोत्तर (वाणी और श्रवण) पाठ्यक्रम श्रवण विज्ञान और वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के समतुल्य है ।

## II. विशेष स्कूलों के शिक्षकों और विकलांगजनों के लिए समेकित विद्यालय

(दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में)

26.	विशेष शिक्षा विभाग आन्ध्र विश्वविद्यालय विशाखापटनम् (आन्ध्र प्रदेश)	i) विशेष शिक्षा (दृष्टि विकृति) में एम.एड. (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिग्री	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
		ii) विशेष शिक्षा (दृष्टि विकृति) में बी.एड. (1 वर्ष)	डिग्री	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
27.	श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय कालेज ऑफ एज्युकेशन, श्री रामकृष्ण विद्यालय पोस्ट, कोयम्बटूर-641 020	i) विशेष शिक्षा (बहु-श्रेणी) में बी.एड. (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिग्री	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 और 05-06
		ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में एम.एड. (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिग्री	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05 और 05-06
		iii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में बी.एड. (1 वर्ष)	डिग्री	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
28.	श्री रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द एज्युकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट (विश्वविद्यालयगत) इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, श्री रामकृष्ण विद्यालय डाकघर कोयम्बटूर - 641 020	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में बी.एड. क्रेडिट आधार पर	स्नातकोत्तर डिग्री	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
		ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में बी.एड. - क्रेडिट आधार पर	डिग्री	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
29.	जामिया मिर्बिया इस्लामिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एज्युकेशन, शिक्षा संकाय, मौलाना मोहम्मद अली जीहर मार्ग, नई दिल्ली -110 025	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में एम.एड. (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिग्री	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
		ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में बी.एड. (1 वर्ष)	डिग्री	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
30.	विशेष शिक्षा विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में एम.एड.	स्नातकोत्तर डिग्री	2004-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09

		(1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में बी.एड. (1 वर्ष)	डिग्री		2004-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
31.	एस एन डी टी, महिला विश्वविद्यालय, विशेष शिक्षा विभाग, जूहू रोड, सांताक्रूज, मुम्बई - 400 049.	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में बी.एड. (1 वर्ष)	डिग्री		2001-02, 02-03, 03-04, 04-05 और 05-06
32.	अविनाशलिंगम डीमड यूनिवर्सिटी, इंस्टीच्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एज्युकेशन फॉर विमेन कोयम्बटूर - 641 043.	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में एम.एड. (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में बी.एड. (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिग्री  डिग्री		1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07  1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
33.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग,, कमछा, वाराणसी	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में बी.एड. (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में एम.एड. (1 वर्ष)	डिग्री  स्नातकोत्तर डिग्री		2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11  06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
34.	महात्मा गांधी ग्रामोयाय विश्वविद्यालय चित्रकूट, -210 204 (उत्तर प्रदेश)	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में बी.एड. (1 वर्ष)	डिग्री		1993-94, 94-95, 95-96 और 96-97
35.	जगद्गुरु रामभद्रचार्य हैंडीकैम्पड यूनिवर्सिटी चित्रकूट, उत्तर प्रदेश - 210204	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में एम.एड. (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में बी.एड. (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिग्री  डिग्री		2005-06 और 06-07  2004-05, 05-06 और 06-07
36.	अंधजन शिक्षण मंडल घोडदौड रोड सूरत - 395 007	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में बी.एड. (1 वर्ष)	डिग्री		2005-06, 06-07, 07-08 और 08-09
37.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, 116, राजपुर रोड, देहरादून - 248 001	i) दृष्टिक विकृति के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर (10 माह)	डिप्लोमा		1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 और 99-00



		ii) (दृष्टिक विकृति) के लिए विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, माध्यमिक स्तर (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04 और 04-05
		iii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में बी.ए. बी.एड. (4 वर्ष)	डिग्री	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07 और 07-08
38.	राष्ट्रीय महिला शिक्षा विद्यालय, 21 ऑ0 बंसत रोड, त्रिपलीकेन, चेन्ने - 600 005	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में बी.एड. (1 वर्ष)	डिग्री	2003-04, 04-05, 05-06 और 06-07
39.	दृष्टिबाधितार्थ किल्लांग प्रशिक्षण केन्द्र, म.न. 10-3-60, नेहरू नगर, सिकन्दराबाद - 500 026.	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, माध्यमिक स्तर (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01 और 01-02
		ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
40.	दृष्टि विकलांग छात्रों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, कदम कुंआ, पटना - 800 003	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, माध्यमिक स्तर (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02 और 02-03
		ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07 और 07-08
41.	क्लाइड रिलीफ एसेसिएशन लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली	i) दृष्टिक विकृति बच्चों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम - माध्यमिक स्तर (10 माह)	डिप्लोमा	अधिसूचना सं0 एस.ओ. 288(ई) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के तहत अधिसूचित 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 और 98-99
		ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, माध्यमिक स्तर (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03 & 03-04
		iii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2004-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10

42.	ब्लाईंड पीपुल्स एसोसिएशन, डा0 विक्रम सारामाई रोड, वस्त्रपुर, अहमदाबाद- 380 015.	i) दृष्टिक विकृति बच्चों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम - माध्यमिक स्तर (10 माह)	डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 97-97, 98- 99 और 99-00
		ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, माध्यमिक स्तर (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2000-01, 01-02, 02-03, 03- 04 और 04-05
		iii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में बी.एड. (1 वर्ष)	डिग्री	2006-07, 07-08 और 08-09
43.	श्री के0के0 स्कूल एंड होम फॉर ब्लाईंड, न्यू फिल्टर के सामने, विद्यानगर, भावनगर - 364 002	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
44.	ट्रेनिंग कालेज फॉर टीचर्स ऑफ दि डीफ एंड ब्लाईंड, नवरंगपुर, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 009.	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, माध्यमिक स्तर (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1997-98, 98-99, 99-00; 00- 01, 01-02, 02-03 और 03-04
		ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2004-05, 05-06, 06-07 और 07-08
45.	श्री रमण महर्षि एकादेमी फॉर दि ब्लाईंड, तीसरा क्रॉस, तीसरा फेस, (नजदीक रागी गुडडा), जे0पी0 नगर, बंगलौर - 78.	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, माध्यमिक स्तर (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2000-01 और 01-02
		ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05 और 05-06

46.	हेलेन कैलर गर्दमेट टीचर ट्रेनिंग सेंटर फार दि विजुवली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, कर्नाटक सरकार, तिलक नगर, मैसूर - 570 021.	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, माध्यमिक स्तर (1 वर्ष)  ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	2000-01 और 01-02  2002-03, 03-04, 04-05, 05- 06 और 06-07
47.	नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड 'प्रेरणा' एम.पी. हाउसिंग बोर्ड कालोनी, स्लाइस-3 हेरापुर, चयपुर छत्तीसगढ़ ।	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03
48.	केरल फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड, ट्रेनिंग सेंटर फॉर दि टीचर्स ऑफ वी.एच. पी.ओ. करीमपुझा, पालक्काड, केरल - 679 513.	i) दृष्टिक विकृति बच्चों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राइमरी स्तर (10 मास)  ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 97-98, 98- 99, 99-00, 00-01 और 01-02  2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
49.	महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ, योजना सं0 54, सत्य साई विद्यालय विहार के पीछे, ए.बी. रोड, इंदौर ।	i) दृष्टिक विकृति बच्चों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राइमरी स्तर (1 वर्ष)  ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	1999-00, 00-01 और 01-02  2002-03, 03-04, 04-05, 05- 06 और 06-07
50.	नेशनल एसोसिएशन फॉर दि वेलफेयर ऑफ दि फिजिकल हैंडीकैप्ड, अमरावती विश्वविद्यालय के मजदीक, गेट नं0 3, मराठी रोड, अमरावती कैम्पस, अमरावती - 444 602.	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, माध्यमिक स्तर (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1997-98, 98-99, 99-00, 00- 01, 01-02 और 02-03

		ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा		2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
51.	दि पूना स्कूल और होम फॉर दि ब्लाइंड टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, 14-17, कोरेगांव, पार्क, डा0 एस.आर. माचेव रोड, पूना - 411 001.	i) दृष्टिक विकृति के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम - प्राथमिक स्तर (10 माह) ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा		1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 और 99-00  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
52.	नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, रूस्तम अपलाईवाला कॉम्प्लेक्स, 124-127, कोटोन डिपो, कोटोन ग्रीन, मुम्बई - 400 033.	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा		2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 और 05-06
53.	मोंटफोर्ट सेंटर फॉर एजुकेशन, दानकग्रे, तुरा, मेघालय - 794 101	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा		2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
54.	ट्रेनिंग सेंटर फॉर दि टीचर्स ऑफ दि विजुअली हैंडीकैप्ड, एस.आई.आर.डी. कैम्पस, यूनिट - 8 भुवनेश्वर - 751012.	i) दृष्टिक विकृति के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम - प्राथमिक स्तर (10 माह) ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा		1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 00-01 और 01-02  2002-03, 03-04, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
55.	टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दि टीचर्स ऑफ दि विजुअली हैंडीकैप्ड, गर्वमेंट इंस्टीट्यूट फॉर दि ब्लाइंड, बरेली भवन, जमालपुर	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में	डिप्लोमा		2002-03 और 03-04

	लुधियाना, पंजाब।		डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)		
56.	एल.के.सी. जगदम्बा अंध विद्यालय समिति, हनुमानगढ़ रोड, श्रीगंगा नगर - 335 001	i) दृष्टिक विकृति बच्चों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम - प्राथमिक स्तर (10 माह)  ii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा   डिप्लोमा	1997-98 और 98-99   1999-00, 00-01, 01-02, 02- 03, 03-04, 04- 05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09	
57.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मार्फत गर्वमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर दि ब्लाईंड, पूनामाल्ले, चेन्नई - 600 056.	i) अध्यापन में डिप्लोमा (6 माह स्कूल में + 12 माह पत्राचार द्वारा)  ii) दृष्टिहीनों के लिए अध्यापन में विशेष परीक्षा (10 माह)  iii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा   प्रमाणपत्र   डिप्लोमा	अधिसूचना सं० का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित  अधिसूचना सं० का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित  1998-99, 99-00, 00-01, 01- 02 और 02-03	
58.	गर्वमेंट इंटर कालेज फॉर दि ब्लाईंड, मोहन रोड, लखनऊ।	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1998-99, 99-00, 00-01, 01- 02, 06-07 और 07-08	
59.	इजराजी देवी शिक्षण संस्थान, 23-बी, पार्क रोड, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2004-05 और 05-06	

60.	विवेकानन्द मिशन आश्रम, विवेकनगर, पी.ओ. चैतन्यपुर (हल्दिया), जिला मिदिनीपुर, पश्चिम बंगाल - 721 645	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2000-01, 01-02, 02-03, 03- 04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08- 09, 09-10 और 10- 11
61.	रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन, 7, रीवरसाइड, पी.ओ. बैरकपोरे, नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाली - 743 101	i) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, प्राइमरी स्तर (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06 और 06-07
62.	रामकृष्ण मिशन ब्लाईंड ब्याय एकेडमी, नरेन्द्रपुर, कोलकाता - 700 103 (पश्चिम बंगाल)	i) दृष्टिक विकृति व्यक्तियों के लिए प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए सेवा (18 माह)  ii) दृष्टिक विकृति व्यक्तियों के लिए माध्यमिक स्तर के (10 माह)  iii) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में डिप्लोमा, माध्यमिक स्तर (1 वर्ष) iv) विशेष शिक्षा (दृष्टिक विकृति) में बी.एड. (1 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा  डिप्लोमा  डिप्लोमा	अधिसूचना सं० का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित 1994-95, 95-96, 96-97, 97- 98 और 98-99  अधिसूचना सं० का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित 1994-95, 95-96, 96- 97, 97-98 और 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02- 03 और 03-04  2004-05 और 05-06

63.	मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, आइटीआई, गैर रहित भवन, गोविन्दपुर, भोपाल- 23, मध्य प्रदेश	i) बी.एड. (विशेष शिक्षा) दूरस्थ शिक्षा दृष्टिक दिकृति (2 वर्ष)  ii) स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा (18 माह)  iii) फाउंडेशन कोर्स (विशेष शिक्षा- दूरस्थ शिक्षा) (3 माह)	डिग्री   डिप्लोमा  प्रमाणपत्र	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09  2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09  2002 से 2004 तक 2004 से 2009 तक
64.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, 1, बुडबुर्न पार्क, कोलकाता- 700 020 पश्चिम बंगाल 1	i) बी.एड. विशेष शिक्षा (दृष्टिक दिकृति) - बंगला भाषा (दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से (2 वर्ष)	डिग्री	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
65.	उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, 17, महर्षि दयादनन्द मार्ग थॉनहिल रोड, इलाहाबाद - 211 001	i) बी.एड. विशेष शिक्षा (दृष्टिक दिकृति) - हिन्दी भाषा (दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से (2 वर्ष)	डिग्री	05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
66.	हेलन किल्लर इंस्टीट्यूट फॉर दि डिफ एंड डीफ ब्लाइंड (आदित्य बिस्ला सेंटर) फ्लोट सं० सीसी-1, टीटीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, नावी मुम्बई - 400 701.	i) विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (मूक-दृष्टिहीन) (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2000-2001, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
67.	दि क्लार्क स्कूल फॉर दि डेफ 'साधना' नं० 3, तीसरी गली, डा० राधाकृष्णन रोड, मिलापुर, चेन्नई - 600 004.	i) विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (मूक-दृष्टिहीन) (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
68.	बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट रोड, कोवालम (पीओ) कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु-603112	i) विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (मूक-दृष्टिहीन) (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2006-07, 07-08 और 08-09

(मानसिक मंदता के क्षेत्र में)

69.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मनोविकास नगर, पोस्ट ऑ0 बोंवनपल्ली, सिकन्दराबाद - 500009.	<p>i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में एम.एड. (1 वर्ष)</p> <p>डिग्री</p> <p>ii) (विशेष शिक्षा मानसिक मंदता) में बी.एड. (1 वर्ष)</p> <p>डिग्री</p> <p>iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (1 वर्ष)</p> <p>डिप्लोमा</p> <p>iv) प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (1 वर्ष)</p> <p>डिप्लोमा</p> <p>v) मानसिक मंदता में डिप्लोमा (1 वर्ष)</p> <p>डिप्लोमा</p> <p>vi) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (1 वर्ष)</p> <p>डिप्लोमा</p>	<p>स्नातकोत्तर डिग्री</p> <p>डिग्री</p> <p>डिप्लोमा</p> <p>डिप्लोमा</p> <p>डिप्लोमा</p> <p>डिप्लोमा</p> <p>डिप्लोमा</p>	<p>2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10</p> <p>1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11</p> <p>1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10</p> <p>2003-04, 04-05, 05-06, 06-07 और 07-08</p> <p>1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 &amp; 98-99</p> <p>1999-00, 00-01, 01-02, 02-03 और 03-04</p>
70.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, (उत्तर क्षेत्रीय केन्द्र) कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली - 24	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03 और 03-04
71.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, (पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र) (अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान) के.सी. मार्ग, बान्द्रा (प.) मुम्बई - 400 050	<p>i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)</p> <p>डिप्लोमा</p> <p>ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा</p> <p>डिप्लोमा</p>	<p>डिप्लोमा</p> <p>डिप्लोमा</p>	<p>1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 06-07, 07-08 और 08-09</p> <p>2003-04 और 04-05</p>



		(मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (1 वर्ष)		
72.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, ईआरसी, एनआईओएच, कैम्पस, बोन हुगली, बी.टी.रोड, कोलकाता-700 090.	i) बी.एड. (विशेष शिक्षा - मानसिक मंदता ) (1 वर्ष ) ii) मानसिक मंदता में डिप्लोमा (1 वर्ष) iii) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता ) में डिप्लोमा (2 वर्ष ) iv) व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार (मानसिक मंदता ) में डिप्लोमा (1 वर्ष )	डिग्री  डिप्लोमा  डिप्लोमा  डिप्लोमा	2004-05, 05-06, 06-07, 07- 08, 08-09 और 09- 10  1994-95, 95-96, 96-97, 97- 98 और 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10  2004-05 और 05-06
73.	एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय, विशेष शिक्षा विभाग, सर विठ्ठलदास विद्या विहार, जुहु रोड, सांताक्रूज (पश्चिम) मुम्बई- 400 049.	i) एम.एड. (विशेष शिक्षा-मानसिक मंदता ) (1 वर्ष ) ii) बी.एड. (विशेष शिक्षा- मानसिक मंदता ) (1 वर्ष ) iii) बी.एड. (विशेष शिक्षा बहु विषयक श्रेणी ) (1 वर्ष ) iv) स्नातकोत्तर डिप्लोमा इन टीचर एज्युकेशन फॉर चिल्ड्रन विद् लर्निंग डिसेबिलिटी	स्नातकोत्तर डिग्री  डिग्री  डिग्री  स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1997-98, 98-99, 99-00, 00- 01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05- 06 और 06-07  1997-98, 98-99, 99-00, 00- 01, 01-02, 02-03, 03-04 और 04-05  2002-03, 03-04, 04-05, 05- 06 और 06-07  1997-98, 98-99, 99-00, 00- 01 और 01-02
74.	श्री रामकृष्णन मिशन विवेकानन्द शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, (विश्वविद्यालयवत) - अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास केन्द्र, श्री रामकृष्णन विद्यालय पोस्ट, कोयम्बतूर- 641 020	i) एम.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता)- ऋण आधार पर	स्नातकोत्तर डिग्री	2005-06, 06-07, 07-08, 08- 09 और 09-10

34836/06-3

		ii) बी.एड. (विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता)- ऋण आधार पर	डिग्री	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
75.	निर्मला सदन ट्रेनिंग कालेज फॉर स्पेशल एज्युकेशन, इर्णाकुलम, (जिला), मुक्तापूझा, केरल - 686 661.	i) बी.एड. (विशेष शिक्षा मानसिक मंदता) (1 वर्ष)	डिग्री	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
		ii) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
76.	माइंड शैक्षिक अनुसंधान कालेज सेवरी हिल्स, सेवरी रोड, मुम्बई-400 033.	i) बी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) (1 वर्ष)	डिग्री	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
		ii) मानसिक मंदता में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1995-96 & 96-97
		iii) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
77.	एस.बी.टी. कालेज ऑफ स्पेशल एज्युकेशन, डा0 एम.ए. थंगराज कम्पाउंड, डी आर ओ कालोनी, मदुरै- 625 007.	i) बी.एड. (विशेष शिक्षा- मानसिक मंदता) (1 वर्ष)	डिग्री	1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
		ii) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1995-96 और 96-97
78.	कालेज ऑफ स्पेशल एज्युकेशन, (राष्ट्रीय स्वाभिमान) इन्द्रप्रस्थ, तालुका- अंजार, जिला - कच्छ, गुजरात -370020	i) बी.एड. (विशेष शिक्षा-मानसिक मंदता) (1 वर्ष)	डिग्री	2005-06 और 06-07
		ii) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2005-06 और 06-07

79.	सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ केयर, पोस्ट आफिस एवं गांव खार्जुंदीही, वाया कटवा, जिला- बुर्दवान : 713 518	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (मानसिक मंदता) (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07  1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
80.	मनोविकास केन्द्र रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दि हैण्डीकैप्ड, 482, मधुदाह, प्लोट 1-24, सेक्टर-जे, ईस्टर्न मेट्रोपोलिटन बाईपास, कोलकाता - 700 078.	i) बी.एड. (विशेष शिक्षा-मानसिक मंदता) (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिग्री  डिप्लोमा	2005-06 और 06-07  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
81.	"श्रवण" सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ एडल्ट पर्सन्स विद् मेंटल रिटार्डेशन, गांधी नगर, महिला आश्रम के नजदीक, रोहतक - 124 001	i) बी.एड. (विशेष शिक्षा मानसिक मंदता) (1 वर्ष)	डिग्री	2004-05 और 05-06
82.	मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, अर्बुटीआई, गैस राहत भवन, गोविन्दपुरा, भोपाल- 23, मध्य प्रदेश	i) बी.एड. (विशेष शिक्षा - दूरस्थ शिक्षा) मानसिक मंदता (2 वर्ष) ii) स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा (मानसिक मंदता) (18 माह) iii) फाउंडेशन कोर्स (विशेष शिक्षा-दूरस्थ शिक्षा)-मानसिक मंदता (3 माह)	डिग्री  डिप्लोमा  प्रमाणपत्र	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09  2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09  2002 से 2004 तक 2004 से 2009 तक
83.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, 1, कुडबर्न पार्क, कोलकाता - 700 020 पश्चिम बंगाल	i) बी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) (दूरस्थ शिक्षा प्रणाली) बंगाली भाषा (2 वर्ष)	डिग्री	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10

84.	उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, 17 महर्षि दयानन्द मार्ग, थोरनेहिल रोड, इलाहाबाद - 211 001	i) बी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) (दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से) हिन्दी भाषा ( 2 वर्ष )	डिग्री	05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
85.	एमआईआईआर कालेज ऑफ एज्युकेशन अंडर मोडल इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन एंड रिसर्च, बी सी रोड, जम्मू - 180 001	i) बी.एड. (विशेष शिक्षा - मानसिक मंदता ( 1 वर्ष )	डिग्री	2005-06
86.	ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर दि मेंटली हैंडीकैप्ड, विवेकानन्द नगर दिलकुश नगर, हैदराबाद - 500 660	i) निःशक्त व्यक्तियों के लिए विकासात्मक पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ( 1 वर्ष ) ii) मानसिक मंदता में डिप्लोमा ( 1 वर्ष ) iii) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा  डिप्लोमा  डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10  1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 और 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
87.	रूरल प्रोजेक्ट ऑफ ठाकुर हरी प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर दि मेंटली हैंडीकैप्ड, म.नं0 4/186, लाला चेरुवु, राजामुन्दरी - 533 106 (आंध्र प्रदेश.)	i) मानसिक मंदता में डिप्लोमा (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	1993-94, 94-95 और 95-96  1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 और 05-06
88.	क्षेत्रीय केन्द्र, एनआईएमएच, आईएस कालोनी, बेली रोड, दानापुर, पटना - 801503	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1997-98
89.	रॉयल सीमा सेवा समिति, नं0 9 ओल्ड हाजुर आफिस बिल्डिंग, तिरुपति - 517 501	i) मानसिक मंदता में डिप्लोमा (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	1993-94 और 94-95  1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11

90.	नार्थ ईस्टर्न रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर दि मेंटली हैंडीकैप्ड, मनोविकास केन्द्र विकासपुर, काहीलीपाडा, गुवाहाटी- 781 019	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
91.	कम्पोजिट रीजनल सेंटर गर्वमेंट ऑफ इंडिया, पीएमआरटी बिल्डिंग, (गुवाहाटी मेडीकल कालेज अस्पताल कैम्पस), गुवाहाटी - 781 032.	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
92.	आर्युवेदिक एंड मैगनेटोथैरेपी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एम.एम.सी.एच. अस्पताल रोड, गुलजार बाग, टी बी अस्पताल के नजदीक पटना- 800 007.	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2000-01, 01-02, 02-03 और 03-04
93.	गर्वमेंट इंस्टीट्यूट फॉर दि मेंटली हैंडीकैप्ड, सेक्टर- 32, चंडीगढ़ - 160 047.	i) व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
94.	"आकांक्षा", लायन्स स्कूल फॉर दि मेंटली हैंडीकैप्ड, लायन्स डेन, जलविहार कालोनी, रायपुर - 492 007.	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
95.	इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एज्युकेशन, वाई एम सी ए, निजामुद्दीन, नई दिल्ली - 110 013.	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 और 05-06
96.	अमर ज्योति पुनर्वास और अनुसंधान केन्द्र, कडकडुमा, विकास मार्ग, दिल्ली - 110 092	i) सामान्य स्कूल में बहुविध विकलांगता आवश्यकताओं के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम ii) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा डिप्लोमा	1992-93 और 93-94  1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
97.	दिल्ली सोसायटी फॉर दि	i) विशेष शिक्षा	डिप्लोमा	1999-00, 00-01, 01-02, 02-

	वेलफेयर ऑफ दि मेंटली रिटार्डिड चिल्ड्रन, ओखला सेंटर, ओखला मार्ग, नई दिल्ली ।	(मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)		03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
98.	लोकविश्वास प्रतिष्ठान, शांतादुर्गकृपा आश्रम, कपिलेश्वरी, धावली, पोंडा, गोवा 403 401.	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06 और 06-07
99.	बी.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ आश्रम रोड, न्यू नेहरू ब्रिज, नवरंगपुर, अहमदाबाद - 380 009.	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
100.	मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट, चिल्ड्रन हास्पिटल, कारेली बाग, वदोदश - 390 018	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
101.	गुजरात केलवाणी ट्रस्ट, मंगल प्रभात बिल्डिंग, सेंट जेवियर हाई स्कूल के सामने, मिर्जापुर, अहमदाबाद - 380 001	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
102.	'अंकुर' स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डिड, प्लोट नं० 1945, नीयर वर्किंग वोमेन हास्टल, सरदारनगर सर्किल, भावनगर - 364 002.	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
103.	ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल, हास्पिटल रोड, नीयर रेलवे सोवर ब्रिज, पी.ओ.बाक्स - 115, दाहोद - 389 151.	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा	डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
104.	अर्पण, इंस्टीट्यूट फॉर दि मेंटली हैंडीकैप्ड, (फोरमली रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट फॉर दि मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन) गांधी नगर, रोहतक - 124 001	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
105.	दीपशिखा इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेंटल हैल्थ, स्वामी श्रृद्धानन्द रोड, रांची - 834 001.	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)  ii) (विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	1994-95, 95-96 और 96-97  1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
106.	डॉ० टी.एम.ए. पाई कॉलेज ऑफ स्पेशल एज्युकेशन, कुंजीबेतूर, उडुपी - 576 102. कर्नाटक	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04 और 04-05

107.	सेंट एगनेस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर दि स्पेशल एज्युकेशन बेनडोर, मंगलौर - 575 002	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 98-99, 99- 00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04- 05, 05-06, 06-07 और 07-08
108.	कर्नाटक पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर दि मेंटली रिटार्ड्ड सिटीजन, एएमसी कम्पाउंड, आफ, होसुर रोड, नियर किंदवई मैमोरियल हॉस्पिटल, बंगलौर - 560 029	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
109.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन मेंटल रिटार्डेशन, मुरीजापालम, मेडिकल कालेज पी.ओ. त्रिखनन्तपुरम- 695 011	i) मानसिक मंदता में डिप्लोमा (1 वर्ष)  ii) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	1994-95, 95-96, 96-97, 97- 98 और 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02- 03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07- 08, 08-09 और 09- 10
110.	आरएसएमएच टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 15/769, वेल्लीपारमबा, कालीकट - 673 008 केरल	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2005-06, 06-07, 07-08, 08- 09 और 09-10
111.	बाल विकास अध्यापक सेंटर, बाल विकास सोसाइटी, बाल विकास भवन, पेरुक्काडा पी.ओ. त्रिखन्थापुरम - 695 005.	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1994-95, 95-96, 96-97, 97- 98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02- 03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07- 08, 08-09, 09-10 और 10-11
112.	फेथ इंडिया फेथ इंडिया भवन, पुथेंक्रुज पी.ओ., जिला इरनाकुलम केरल- 682 308.	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1999-00, 00-01, 01-02, 02- 03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
113.	के0वी0एम0 कालेज ऑफ स्पेशल एज्युकेशन, पो.बाक्स नं0 30 चेरथला, एलाप्पुझा जिला केरल-688 524	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2001-02, 02-03, 03-04, 04- 05, 05-06, 06-07 और 07-08
114.	स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर दि मेंटली हैंडीकैप्ड, (केरल सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था) पंगाप्पाडा, त्रिखन्थापुरम, केरल - 695 581	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2001-02, 02-03, 03-04, 04- 05, 05-06, 06-07 और 07-08
115.	स्नेहा सदन कालेज ऑफ स्पेशल एज्युकेशन एंकामली-683 572, इरनाकुलम जिला, केरल	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09

116.	पोप पॉल मर्सी होम (मानसिक रूप से मंद विकलांगों के लिए आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र) पेरिंगडूर - 680 581 त्रिसूर जिला (केरल)	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03 और 03-04
117.	विशेष शिक्षा के लिए जैनि केन्द्र, पीसारी मंदिर रोड, एरोड, कोची- 682 306. केरल	i) व्यावसायिक प्रशिक्षण और नियोजन (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (एक वर्षीय)	डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06, 06- 07, 07-08, 08-09 और 09-10
118.	एडब्ल्यूएच इंस्टीट्यूट फॉर दि हैंडीकैप्ड 30/183 ए. मेडिकल कालेज पी.ओ. कालीकट - 673 008	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1996-97, 97-98, 98-99, 99- 00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04 और 04-05
119.	दिग्दर्शिका इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च रेड क्रॉस भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462 016	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 97-98, 98- 99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03- 04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08- 09 और 09-10
120.	प्रबोधिनी ट्रस्ट, ओल्ड पंडित कालोनी, शारनपुर रोड, नासिक - 422 002	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1996-97, 97-98, 98-99, 00- 01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05- 06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
121.	मालोश्री स्व० जानकीदेवी एतकार स्पेशल टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर जिनगाबाई तकली रोड, गीता नगर, वार्ड नं० 1, नागपुर - 440030.	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1996-97, 97-98, 98-99, 99- 00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04- 05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
122.	वाई अक्षर इंस्टीट्यूट, 401 गणपति अली, वाई जिला, सतारा - 412 803	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 97-98, 98- 99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03- 04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08- 09 और 09-10
123.	कामायनी प्रशिक्षण और संशोधन सोसाइटी, सी.टी.एस. सं० 3024/11, प्लोट 270/बी, गोखले नगर, पुणे- 16	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1997-98, 98-99, 99-00, 00- 01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05- 06, 06-07, 07-08 और 08-09
124.	दिलकुश टीचर्स ट्रेनिंग इन स्पेशल एज्युकेशन, चर्च रोड, जूहू, मुम्बई - 400 049.	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1997-98, 98-99, 00-01, 01- 02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06- 07, 07-08, 08-09 और 09-10



125.	ऑल मणिपुर मेंटली इंटीकेण्ड- पर्सनल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, कीरानधोंग, टाप लेसक, इम्फाल -795 001	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा	डिप्लोमा	2001-02, 02-03, 03-04, 04- 05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
126.	चेतना इंस्टीट्यूट फॉर दि मेंटली इंटीकेण्ड (ज्वेलस इंटरनेशनल) ए/3, नयापल्ली, ओबराय होटल के सानने, पी.ओ. आस्सारएल कैम्पस, भुवनेश्वर - 751 013	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 97-98, 98- 99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03- 04, 04-05 और 06- 07
127.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, सेधी कालोनी, जयपुर।	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1994-95, 95-96, 96-97, 97- 98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02- 03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 और 07-08
128.	दि क्लार्क स्कूल फार दि डेफ "साधना", सं०.3, तीसरी गली, डॉ० साधकृष्णन रोड, माइलपीर, चेन्नै - 600 004.	i) मानसिक मंदता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अध्यापक प्रशिक्षण  ii) मानसिक मंदता में डिप्लोमा (1 वर्ष)  iii) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा  डिप्लोमा	अधिसूचना सं० एस.ओ. 288( ई) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के तहत अधिसूचित 1994-95, 95-96, 96-97, 97- 98 और 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02- 03 और 03-04  2004-05, 05-06, 06-07 और 07-08
129.	बाल विहार ट्रेनिंग स्कूल, हाक्स रोड, किलफोक गार्डन, चेन्नई - 600 010.	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1994-95, 95-96, 96-97, 97- 98, 98-99, 00-01, 01-02, 02-03, 03- 04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08- 09 और 09-10
130.	नवज्योति ट्रस्ट, 40, मीनाम्बेडु रोड, सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, चेन्नई- 600 098.	i) व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 97-98, 98- 99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03- 04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08- 09 और 09-10
131.	होली क्रॉस कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस एंड स्पेशल एज्युकेशन, तिरुचिरापल्ली - 620 002	i) विशेष शिक्षा में सहयोजित डिग्री (3 वर्ष)  ii) विशेष शिक्षा(मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिग्री  डिप्लोमा	1992-93, 93-94 और 94-95  2000-01, 01-02, 02-03, 03- 04, 04-05, 05-06 और 06-07

132.	विजय हुमान सर्विसेज # 4, लक्ष्मीपुरम, तीसरी गली, रोयापेटटाह, चेन्नई- 600 014.	i) प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06 और 06-07
133.	सुश्री आन मैसोरियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ए यूनिट आफ इकोमवेल आर्थोपेडिक सेंटर) इकोमवेल कैम्पस, धारमंगलम पी.ओ., सलेम जिला - 636 502.	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2004-05, 05-06 और 06-07
134.	चेतना (ए सोसाइटी ऑफ दि वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड), सेक्टर - सी, अलीगंज, लखनऊ - 226 020.	i) मानसिक मंदता में डिप्लोमा (1 वर्ष)  ii) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	1994-95 और 95-96  1996-97, 97-98, 98-99, 99- 00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04- 05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09- 10 और 10-11
135.	इंटरग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर दि डिसेबल्ड, करुंदी, बी.एच.यू., वाराणसी - 221 005.	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)  ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07  2006-07 और 07-08
136.	राफेल, पी.ओ. बाक्स सं० 157, देहरादून- 248 001	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05- 06, 06-07, 07-08 और 08-09
137.	शेल्टर, 3, कालबती लेन, भद्रेश्वर, जिला हुगली - 712 124	i) व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार (मानसिक मंदता) डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06 और 06-07
138.	अलकेन्दु बोध निकेतन आवासीय संस्था, पी-1/4/1, सी आई टी स्कीम, 7-एम, वी.आई.पी. रोड, कनकुरगची, कोलकाता - 700 054.	i) मानसिक मंदता में डिप्लोमा (1 वर्ष)  ii) विशेष शिक्षा	डिप्लोमा  डिप्लोमा	1994-95, 95-96, 96-97 और 97-98  1998-99, 99-00,

		(मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)		00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
139.	प्रेम आश्रम इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, चिल्ड्रन होम पी.ओ. उन्न -174303	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
140.	दिव्य शांति विशेष स्कूल, सिलास हाऊस, प्रथम क्रॉस रोड, रॉबर्टसोपेट, के.जी.एफ. -563 122 कर्नाटक	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1994-95 और 95-96
141.	तमना स्पेशल स्कूल, डी-6, स्ट्रीट, वसंत विहार, नई दिल्ली।	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02 और 02-03
142.	अविनाशलिगम डीमेड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एज्युकेशन फॉर वीमेन, कोयम्बटूर - 641 043	i) विशेष शिक्षा और पुनर्वास में बी.एससी (3 वर्ष)	डिग्री	1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
143.	इंस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज इन एज्युकेशन (आईएएसई), एमजेपी रोहीलखंड यूनिवर्सिटी बरेली - 243 006. (उप्र)	i) विशेष शिक्षा (विकलांगता शिक्षण) में स्नातक (1 वर्षीय)	डिग्री	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05 और 05-06
144.	लाइफ हैल्प सेंटर फॉर दि हैंडीकैप्ड, 2/546 ईस्ट कोस्ट रोड, नीलांगराय, चेन्नई-600041	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (2 वर्ष) ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजागा(मानसिक मंदता) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा डिप्लोमा	2006-07 2006-07
145.	सेंट, जॉन दि बैपटीस्ट कॉलेज ऑफ स्पेशल एज्युकेशन, नेडुमकुन्नाम, कोटयाम जिला, पिन-868542, केरल	i) विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में बी.एड. (1वर्ष)	डिग्री	2006-07
146.	मिदनापुर रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन. "गीतांजली", विद्या सागर रोड, पी.ओ. मिदनापुर, जिला पश्चिम मिदनापुर - 721101	i) विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (मानसिक मंदता) (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2006-07 और 07-08

(श्रवण विकृति के क्षेत्र में)

147.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, एसआरसी, (एनआईएमएच कैम्पस) मनोविकास नगर, डाकघर- बोंवनपल्ली, सिकन्दराबाद - 500 009	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में बी.एड (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (12 वर्ष)	डिग्री डिप्लोमा	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07 1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
148.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, किशनचन्द मार्ग, बान्द्रा, मुम्बई- 400 050.	i) बी.एड. (मूक) (1 वर्ष) ii) शिक्षा (क्षेत्रीय भाषा में) डिप्लोमा (1 वर्ष) iii) बी.एड. (विशेष शिक्षा - श्रवण विकलांगता) (1 वर्ष) iv) एम.एड. (विशेष शिक्षा- श्रवण विकलांगता) (1 वर्ष)	डिग्री डिप्लोमा डिग्री स्नातकोत्तर	अधिसूचना सं० का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित अधिसूचना सं० का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित 2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11 2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
149.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, (पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, एनआईओएच कैम्पस, बोन हुगली, बी.टी. रोड, कोलकाता - 700 090.	i) शिक्षा (श्रवण विकलांगता) में डिप्लोमा (1 वर्ष) ii) बी.एड. (विशेष शिक्षा- श्रवण विकलांगता) (1 वर्ष) iii) (विशेष शिक्षा में एम.एड. (श्रवण विकृति) (1 वर्ष)	डिप्लोमा डिग्री स्नातकोत्तर	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 और 99-00 1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07 2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
150.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, (उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली - 110 024	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकलांगता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07

151.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय तिरुपति - 517 502.	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में एम. एड. (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में बी. एड. (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिग्री  डिग्री	2002-03, 04-05 और 05-06  2001-02, 02-03, 03-04, 04- 05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
152.	हेलन केल्लर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिविबिलिटेशन फॉर दि डिसेबल्ड चिल्ड्रन, बैंक कालोनी, रामकृष्णपुरम, सिकन्दराबाद 500 056	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में बी. एड. (1 वर्ष)	डिग्री	2004-05, 05-06, 06-07 और 07-08
153.	कालेज ऑफ टीचर्स एज्युकेशन, आन्ध्र महिला सभा, दुर्गाबाई देशमुख विद्यापीठ, (उत्तमानिया यूनिवर्सिटी कैम्पस) हैदराबाद - 500 007.	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में बी. एड. (1 वर्ष)	डिग्री	2000-01, 01-02, 02-03, 03- 04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
154.	श्री के०एस० इंस्टीट्यूट फॉर दि डेफ, पीएनआर सोसाइटी फॉर रिलीफ एंड रिविबिलिटेशन ऑफ दि डिसेबल्ड, 51, विद्यानगर, भावनगर - 364 002.	i) मूक बधिर के लिए अध्यापक प्रशिक्षण ii) शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष) iii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा. (2 वर्ष) iv) विशेष शिक्षा बी. एड. (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा  डिप्लोमा  डिग्री	अधिसूचना सं० का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित  1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 और 99-00  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10  1999-00, 00-01, 03-05, 05- 06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
155.	विशेष शिक्षा महाविद्यालय, राष्ट्रीय स्वाभिमान) भवाऊ - भुज राजमार्ग, इन्द्रप्रस्थ, ताकुका-अंजार, जिला कच्छ, गुजरात-370020	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में बी०एड० (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिग्री  डिप्लोमा	2006-07  2005-06 और 06-07
156.	आल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग, मानस गंगोत्री, मैसूर - 570 006.	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में बी०एड० (1 वर्ष)	डिग्री	2002-03, 03-04, 04-05, 05- 06, 06-07 और 07-08

157.	एडब्ल्यूएच इंस्टीट्यूट फॉर दि हैंडीकैप्ड, पो.बा० सं० 59, 17/194 ए, एम स्क्वायर काम्पलेक्स, पावमानी रोड, कालीकट-673001	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में बी०एड० (1 वर्ष)	डिग्री	1996-97, 97-98, 98-99, 99- 00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04- 05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
158.	श्री रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षिक अनुसंधान संस्थान (सत्र विश्वविद्यालयवत्) - अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास केन्द्र श्री रामकृष्ण विद्यालय पोस्ट, कोयम्बटूर	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में एम०एड० - क्रेडिट आधार पर (1 वर्ष)  ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में बी०एड० - क्रेडिट आधार पर (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिग्री डिग्री  डिग्री	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10  2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
159.	हाषु अडवानी विशेष शिक्षा कालेज, 64-65, कलेक्टर कालोनी, चेम्बूर, मुम्बई	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में बी०एड० (1 वर्ष)	डिग्री	1998-99, 99-00, 00-01, 01- 02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06- 07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
160.	पांडुरंग श्यामराव विशेष शिक्षण अध्यापक महाविद्यालय, सर्वे सं० 93/1/बी, पावता पायथा लक्ष्मीनगर, पुणे	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में बी०एड० (1 वर्ष)	डिग्री	1999-00, 02-03, 03-04, 04- 05, 05-06 और 06-07
161.	प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी, पी ई एस डब्ल्यू आई ई, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, शिवाजी नगर, पुणे- 411 005.	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में बी०एड० (1 वर्ष)	डिग्री	2004-05, 05-06, 06-07 और 07-08
162.	उच्च शिक्षा में अध्ययन संस्थान (आई ए एस ई) एम जे पी रोहिलखन्द विश्वविद्यालय, बरेली - 243 006.	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में एम०एड० (1 वर्ष)  ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में बी०एड० (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिग्री  डिग्री	1998-99, 99-00, 00-01, 01- 02, 02-03, 03-04 और 04-05  1998-99, 99-00, 00-01, 01- 02, 02-03, 03-04 और 04-05
163.	राजीव गांधी स्नातकोत्तर कालेज, ग्राम व पोस्ट-कोटवा, जामुनीपुर, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में बी०एड० (1 वर्ष)	डिग्री	2003-04, 04-05 और 05-06
164.	जगतगुरु रामभद्रचार्य विकलांगन विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उ०प्र०- 210 204	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में बी०एड० (1 वर्ष)	डिग्री	2005-06 और 06-07

165.	स्वीकार विकलांगजन पुनर्वास संस्थान, उपकार सर्कल, पीकेट सिकन्दराबाद - 500 003.	i) शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	1996-97, 97-98, 98-99 और 99-00  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
166.	हेलन केलर मूक-बधिर विद्यालय 10/7, समीप शिवा लिंगम, बीड़ी फैक्टरी, बलाही रोड, कूडप्पा-518001	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
167.	मूक-बधिरों हेतु नवजीवन आवासीय विशेष विद्यालय, द्वार नं० 4-174 एस०, अयालुशीमेटटा पोनापुरम पोस्ट, करनूल (जिला) नांदयाल-518 502.	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
168.	जे०एम० बाक् व श्रवण संस्था, इन्द्रपुरी डाकघर- केहरी नगर पटना - 800 023	i) (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	1995-96 और 96-97  1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
169.	जीवन विकास प्रतिष्ठान मूक-बधिर विद्यालय, सिगनल कैम्प, लातूर ।	i) शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1996-97, 97-98, 98-99 और 99-00
170.	लायन्स चैरिटेबल ट्रस्ट 'प्रयास' श्रवण विकलांग संस्थान, जी ई रोड, सुपेला, मिलाई - 490023 छत्तीसगढ़	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
171.	राजस्थान मूक-बधिर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, कुपवाडा रोड, सांगनेर कालोनी, मिलवाड़ा, राजस्थान-311 001	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1998-99 और 99-00
172.	चन्द्र भूषण सिंह स्मारक महिला, बाल एवं श्रवण विकलांग शिक्षा एवं पुनर्वास संस्थान 4, हसनपुर आई पी एक्सटेंशन, हसनपुर डिपो के नजदीक, दिल्ली -110 092	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
173.	अक्षर न्यास, मेघदूत, आर सी दत्त रोड, अल्कापुरी, बडौदा - 390 007	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10

174.	मूक-बधिर और दृष्टि बाधित शिक्षक प्रशिक्षण कालेज, नवरंगपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 009	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
175.	वाक् व श्रवण संस्थान, हेनूर रोड, बंगलौर - 560 084.	i) शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा डिप्लोमा	1992-93, 93-94, 94-95, 95-96 और 96-97 1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
176.	कर्नाटक विकलांगजन कल्याण संघ, जीवन बीमा नगर, बंगलौर - 560 075.	i) शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा डिप्लोमा	1994-95, 95-96 और 96-97 1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 और 07-08
177.	राजकीय श्रवण विकलांग शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, तिलक नगर, कर्नाटक सरकार, मैसूर - 570 021.	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 और 07-08
178.	श्रवण बाधितों के शिक्षकों के लिए सी.एस. आई. प्रशिक्षण केन्द्र, डाकघर - वालाकॉम, कोलम - 691 332.	i) शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 और 99-00 2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
179.	राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण विकलांग संस्थान, पैलेस रोड, पूजापुरा, त्रिवेन्द्रम- 695012	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष) ii) युवा श्रवण विकलांग बच्चों के अध्यापन में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा डिप्लोमा	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04 और 04-05 2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
180.	संजीवनी सेवा संगम, सत्य साई विद्या विहार के पीछे, स्कीम सं० 54, इंदौर - 452 008	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2001-02, 02-03, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09



181.	वैष्णो देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, तालुका कलस, जिला उसमानाबाद, महाराष्ट्र	i) (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1997-98 और 98-99
182.	लेफ बी०एन० साओजी अकादमी, 22-मेहर प्रसाद काम्पलेक्स, सेन्ट्रल बाजार रोड, समदासपेठ, नागपुर- 440 010	i) शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	1991-92, 93-94, 94-95, 95-96 और 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02- 03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07- 08, 08-09 और 09-10
183.	मूक-बधिर औद्योगिक संस्थान नार्थ अम्बाजनी रोड, संकर नगर, नागपुर - 440 010.	i) शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	1996-97, 97-98 और 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02- 03, 03-04, 04-05 और 05-06
184.	वी.आर. स्वीट्स मूक बधिर विद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र पुणे - 30.	i) बधिर छात्रों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकलांगता) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	अधिसूचना सं० एस.ओ. 288(ई) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के तहत अधिसूचित 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 और 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02- 03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07- 08, 08-09, 09-10 और 10-11
185.	महाराष्ट्र समाज सेवा संघ, मार्फत श्रीमती माई सेले श्रवण विकास विद्यालय, श्रीरंग नगर, समीप परमिग स्टेशन, नासिक - 422 005	i) शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	1997-98 और 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02- 03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07- 08, 08-09, 09-10 और 10-11
186.	अयोध्या क्रीडबल ट्रस्ट, समीप एस.आर.पी. रोड नं० 2, विकास नगर, ग्राम वानावाडी, पुणे - 411 040.	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1999-00, 00-01, 01-02, 02- 03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07- 08, 08-09, 09-10 और 10-11
187.	विकलांगजन पुनर्वास सोसाइटी, नजदीक सरकारी दूध डेयरी	i) शिक्षा (श्रवण विकृति) में	डिप्लोमा	1996-97, 97-98 और 98-99

348366/06-5

	मिराज, महाराष्ट्र - 416 410.	डिप्लोमा (1 वर्ष)			
		ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा		1999-00, 01-02, 02-03, 03- 04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
188.	मोन्टफोर्ट सेन्टर फॉर एजुकेशन दानकप्रे, तुरा, मेद्यालय - 794 101	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा		1998-99, 99-00, 00-01, 01- 02, 02-03, 03-04, 04-05, 06-07, 07- 08, 08-09 और 09- 10
189.	श्री एस0 साई जगताप गुरुजी शिक्षण प्रसारक मंडल, पोस्ट वैराग, तालुका बर्ही, जिला सोलनपुर।	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा		2005-06 और 06-07
190.	मूक-बधिर अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र (राज्य सरकार और अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान की संयुक्त परियोजना) एस आई आर डी, कैम्पस, यूनिट-8, भुवनेश्वर - 751 012	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा		1997-98, 98-99, 99-00, 00- 01, 01-02, 02-03, 03-04 और 04-05
191.	अनुसंधान शिक्षा और श्रवण विज्ञानीय विकास सोसाइटी (रीडस), डन्डलोड हाउस, सिविल लाइन्स, जयपुर - 302 019	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा		2002-03, 03-04, 04-05, 05- 06, 06-07, 07-08 और 08-09
192.	बधिरों के लिए क्लार्क स्कूल 'साधना' नं0 3, तीसरी स्ट्रीट, डॉ0 राधाकृष्णा रोड, माइलापोर, चेन्नै - 600 004.	i) बधिरों के लिए अध्यापक प्रशिक्षण  ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा		अधिसूचना सं0 का.आ. 288( अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित 1994-95, 95-96, 96-97, 97- 98 और 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02- 03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09,
193.	रंगामाल श्रवण बाधित स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गांव सम्बान्थान, सोमासिपाडी, पोस्ट त्रिरुवन्नामलाई टी0के0तालुका त्रिरुवन्नामलाई जिला- 606 611 तमिलनाडु	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा		2002-03, 03-04, 04-05 और 05-06
194.	बधिरों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कालेज ऐशबाग (तिलक नगर) लखनऊ - 226 004.	i) शिक्षा(श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा		1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 और 99-00

		ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
195.	नव बाणी बधिर स्कूल, गांव कौयराजपुर, कुरुवा - पोस्ट, वाराणसी - 221 105.	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
196.	उत्तर प्रदेश श्रवण बाधित संस्थान, 4-7, मालवीय रोड, जार्ज टाउन, इलाहाबाद - 211 002.	i) शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा डिप्लोमा	1995-96 और 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
197.	बधिरों के शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण कालेज, 293, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कोलकाता - 09.	i) शिक्षा (श्रवण विकलांगता) में डिप्लोमा (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा डिप्लोमा	1995-96  2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
198.	राजीव स्मृति बहु-उद्देश्यीय संस्था, 710/4, फूले प्लॉट, कस्बा वर्षी-413 411 सोलापुर	i) शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1994-95 और 95-96
199.	श्री स्वामी सनेध मूक-बधिर विद्यालय, सोलापुर, महाराष्ट्र	i) शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1994-95 और 95-96
200.	तिलक शिक्षा महाविद्यालय, पुणे-30 महाराष्ट्र	i) शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00 और 00-01
201.	किशनजी गेडम अपंग मूक बधिर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, यशोदा नगर, नं० 2, अमरावती, महाराष्ट्र	i) शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 97-98 और 98-99
202.	शीला कोथार्वला बधिर संस्थान, रूस्तम बाग, इच ए एल रोड, बंगलौर - 17	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2000-01

203.	मूल-बधिर संघ इंदौर एच एस स्कूल और बहुउद्देश्यीय बधिर प्रशिक्षण संस्थान, स्कीम सं० 71-बी, रंजीत हनुमान के पीछे, इन्दौर-9, मध्य प्रदेश	i) भारतीय संकेत भाषा निर्वचन में डिप्लोमा - ए० और बी० स्तर	डिप्लोमा	2005-06 और 06-07
204.	बधिर विद्यालय, इनाथू पो० 03A10, अदूर (वाया) केरल- 691 526	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1999-2001
205.	राष्ट्रीय वाक् और श्रवण संस्थान, पैलेस रोड, पूजापुरा, त्रिवेन्द्रम - 695 012.	i) युवा श्रवण विकृति बच्चों के अध्यापन में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
206.	बाल विद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, 18, पहली क्रॉस स्ट्रीट, शास्त्री नगर, चैन्नै - 600 020.	i) युवा श्रवण विकृति बच्चों के अध्यापन में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
207.	वाक् एवं श्रवण संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र, राज्य संसाधन केन्द्र, 10, मण्डेविले गार्डन, कोलकाता - 700 019	i) युवा श्रवण विकृति बच्चों के अध्यापन में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
208.	लिटल फ्लोवर कान्वेंट बधिर हायर सैकेंडरी स्कूल, पुराना नं० 127, नया नं० 4, जी बी रोड, केथीड्रल, पो० 03A10, चैन्नै - 600 006	i) बधिर अध्यापन में सीनियर डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	अधिसूचना सं० का.आ...288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के तहत अधिसूचित 2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
		ii) बधिर अध्यापन में जूनियर डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
209.	मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय आई.टी.आई. गैस राहत भवन, गोविन्दपुरा, भोपाल-23, मध्य प्रदेश	i) विशेष शिक्षा (श्रवण विकृति) में बी०एड० (2 वर्ष)	डिग्री	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
		ii) स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा (18 माह)	डिप्लोमा	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
		iii) फाउन्डेशन कोर्स (एस.ई.-डी.ई.) (3 माह)	प्रमाणपत्र	2002 से 2004 तक 2004 से 2009 तक

210.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, 1, पुष्करन बाई, कोलकाता - 700 020	विशेष शिक्षा (अवयव विकृति) में बी०ए०एड बंगाली भाषा (दूरस्थ शिक्षा विधि) (2 वर्ष)	डिग्री	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
211.	उत्तर प्रदेश राजकी टंकन मुक्त विश्वविद्यालय, 17, महीष दयानन्द मार्ग, जोरबल्लि सेड, इलाहाबाद - 211 001	विशेष शिक्षा (अवयव विकृति) में हिन्दी भाषा द्वारा बी०ए०एड (दूरस्थ शिक्षा प्रकार) (2 वर्ष)	डिग्री	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
212.	बच्चों के लिए केंद्रीय शिक्षक संस्थान, तीर्थपुर ताल, म्युनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, वाई.एम.सी.ए., स्वीडिश पुल के सामने, अग्निवास, मुम्बई -400 011.	शिक्षा (अवयव विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष)  विशेष शिक्षा (अवयव विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा  डिप्लोमा	1996-97, 97-98 और 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02-03 और 03-04
213.	शतश्री शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, 7वां क्रॉस, रोबर्टगोमपेट, के०जी०एफ० - 563 122 कर्नाटक	शिक्षा (अवयव विकृति) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1993-94 और 94-95
214.	दी एजुकेशनल ओडिओलॉजी एंड रिसर्च सेंटर 'गुलमर्ग' 62, मेथियन सी रोड, मुम्बई -400 006.	अवयव विकृति में अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	प्रमाणपत्र	अधिसूचना सं० का.आ.288( अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित 1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 और 99-00
215.	पूर्वांचल खेती ग्रामोद्योग विकास संस्थान, 588 ओल्ड कलास, इलाहाबाद -211003.	विशेष शिक्षा (अवयव विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिग्री	2006-07 और 07-08
216.	मिदनापुर इंटरनैशनल सेंटर फॉर बिल्डिंग, 'नैतान्जली' बिस्वा सागर रोड, पो.आ. मिदनापुर, जिला पश्चिम मिदनापुर -721101	विशेष शिक्षा (अवयव विकृति) में डिप्लोमा (2 वर्ष)	डिप्लोमा	2006-07 और 07-08

( चलन संबंधी विकासशील और बहुविध विषयों के क्षेत्र में )

217.	स्पाटिक सॉल्यूटी ऑफ नोबल इंडिया, ब्रह्मवीर सम्मेलन मार्ग, लोकायत मार्ग, नई दिल्ली - 110016.	सुविधाओं विकास विविधता (1 वर्ष)	प्रमाणपत्र	1989-90, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94, 94-95, 95-96 और 96-97
------	---	------------------------------------	------------	--

		ii) विशेष शिक्षा - (बहु विकलांगता शारीरिक तथा स्नायु विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01 और 01-02
		iii) विशेष शिक्षा - (बहु विकलांगता शारीरिक तथा स्नायु विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
		iv) विशेष शिक्षा - (बहु विकलांगता शारीरिक तथा स्नायु विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
218.	दि स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, अपर कोलबा रोड, अफगान चर्च के सामने, कोलबा, मुम्बई - 400 005.	i) विशेष शिक्षा - (बहु विकलांगता शारीरिक तथा स्नायु विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
219.	रीच, 18/2/ए/3, उदय संकर सारणी, गोल्फ ग्रीन, कोलकाता - 700 095.	i) विशेष शिक्षा - (बहु विकलांगता शारीरिक तथा स्नायु विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1998-99, 99-00, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 और 07-08
220.	ओपन लर्निंग सिस्टम, प्लॉट नं0 जी-3/ए/1, गदकाना मौजा, पी0ओ0 मानचेश्वर रेलवे कालोनी, नजदीक प्रेस चॉक, भुवनेश्वर - 751017 ( उड़ीसा )	i) विशेष शिक्षा - (बहु विकलांगता शारीरिक तथा स्नायु विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1 वर्ष) ii) विशेष शिक्षा - (प्रमस्तिष्क घात) में डिप्लोमा ( 1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा डिप्लोमा	1998-99 और 99-2000 2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
221.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सरेबल पालसी, पी-35/1, तारातोला रोड, कोलकाता - 700 088.	i) विशेष शिक्षा - (बहु विकलांगता शारीरिक तथा स्नायु विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1 वर्ष) ii) बी.एड. (विशेष शिक्षा - चलन संबंधी विकलांगता) (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा डिग्री	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01 और 01-02 2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
222.	स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु, टी.टी.टी.आई. के सामने, तारामणि रोड, चेन्नई - 600 113.	i) प्रमस्तिष्क घात तथा अन्य स्नायु विकलांग बच्चों के लिए बुनियादी विकास चिकित्सा पाठ्यक्रम (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1991-92, 92-93, 1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 और 05-06

		ii) विशेष शिक्षा - (बहु विकलांगता शारीरिक तथा स्नायु विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00 और 00-01
		iii) विशेष शिक्षा (प्रमस्तिष्क घात) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
223.	दि स्पाष्टिक सोसाइटी ऑफ कर्नाटक, 31, पांचवा क्रॉस, अफ - 5 मेन, इंदिरा नगर, प्रथम स्टेज, बंगलूर -560 038	i) विशेष शिक्षा (प्रमस्तिष्क घात) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
224.	शिशु सरोथी, सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी, रामकृष्णन मिशन रोड, बिरुल्लई, गुवाहाटी -781 016	i) विशेष शिक्षा (प्रमस्तिष्क घात) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
225.	दि सा, सेंटर फॉर स्पेशल एज्युकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन, 450 एबी, निर्माण नगर, किंगस रोड, जयपुर - 302 019	i) विशेष शिक्षा (प्रमस्तिष्क घात) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 और 07-08
226.	स्वा सोसाइटी फॉर दि केयर ऑफ चिल्ड्रन विद मल्टीपल हैंडीकैप्स, 'यासमीन मंजिल' 7/370, दर्गस सलाम रोड, कोचांगडी, कोचिन - 682 002, केरल	i) विशेष शिक्षा (प्रमस्तिष्क घात) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06 और 06-07
227.	श्रीमती परसाबेन नारनदास समजी शाह (तलाजवाला) सोसाइटी फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ दि डिसबलड, 51, विद्यानगर, भावसगर-364 002 (गुजरात)	i) विशेष शिक्षा (प्रमस्तिष्क घात) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2005-06 और 06-07
228.	शिव कल्याण शिक्षण समिति, एलआईजी-26, दूसरी मंजिल, हर्षवर्धन नगर, भोपाल - 462 003	i) विशेष शिक्षा (प्रमस्तिष्क घात) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2003-04, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
229.	विद्या सागर (पूर्वनाम 'दि स्पाष्टिक सोसाइटी आफ इंडिया'), 1, रंजीत नगर रोड, कोतुपुरम, चेन्नई- 600 085	i) विशेष शिक्षा (बहु विकलांगता शारीरिक तथा स्नायु विज्ञान) में डिप्लोमा स्नातकोत्तर	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1996-97, 97-98 और 98-99
230.	रीजनल कालेज ऑफ एज्युकेशन भुवनेश्वर, उडीसा - 751 007	i) विशेष शिक्षा, बहु विकलांगता श्रेणी में प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1989-90, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94 और 94-95
231.	अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर कडकडडूमा, विकास मार्ग, दिल्ली - 110 092	i) प्रमस्तिष्क घात तथा अन्य विकलांगताओं के लिए विशेष शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1994-95, 95-96 और 96-97

232.	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्पारमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) ईस्ट कास्ट, ईस्ट कोस्ट रोड, कोयलम (पीओ) कंचीपुरम जिला, तमिलनाडु - 603112	i) विशेष शिक्षा (प्रमत्तिष्क घात) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2006-07, 07-08 और 08-09
------	--	---	----------	-------------------------

( ऑटिज्म तथा स्पेक्ट्रम विकार के क्षेत्र में )

233.	प्रवीप सेंटर फार ऑटिज्म मैनजमेंट 203, बी, ब्लाक-बी, लेक टाउन, कोलकाता - 700 089	i) विशेष शिक्षा (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार) में डिप्लोमा: (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2005-06 और 2006-07
234.	एक्शन फॉर ऑटिज्म 5- जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया साई निकेतन के पीछे नई दिल्ली - 110 025	i) विशेष शिक्षा (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार) में डिप्लोमा: (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2004-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
235.	तमन्ना " स्कूल ऑफ होप " सी.पी.डब्ल्यू.डी. काम्पलेक्स(चिनमाया विद्यालय के नजदीक) वसन्त विहार, नई दिल्ली - 110 057	i) विशेष शिक्षा (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2004-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
236.	कर्नाटक स्पाष्टिक सोसाइटी, 31, 5वां क्रास का पांचवा मेन, इन्दिरा नगर प्रथम स्टेज, बंगलोर - 560 038	i) विशेष शिक्षा (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार) में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09

### III बहु-उद्देशीय पुनर्वास चिकित्सा तकनीशियन/सहायक/कार्यकर्ता

237.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (उत्तर क्षेत्रीय केन्द्र) कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर - 2, नई दिल्ली - 110 024	i) पुनर्वास चिकित्सा में स्नातक (4 वर्ष)	डिग्री	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
238.	भौतिक चिकित्सा तथा पुनर्वास विभाग, सफ़रजंग अस्पताल, अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110 016.	i) बहु-उद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं के लिए प्रमाणपत्र (1 वर्ष) ii) बहु-उद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं के लिए डिप्लोमा (1½ वर्ष)	प्रमाणपत्र डिप्लोमा	अधिसूचना सं० एस.ओ. 288( ई ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के तहत अधिसूचित  1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
239.	विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र ( सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) बेमिना बाई पास (महिला पोलिटेक्निक कालेज के नजदीक) श्रीनगर-190018.	i) पुनर्वास चिकित्सा में डिप्लोमा (2½ वर्ष)	डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06 और 06-07
240.	मद्रास हबिलिटेड रिटार्डेड एप्लिकेटेड संस्थान, डी-171, आर.वी. नगर, अन्ना नगर, चेन्नई - 600 102	i) बहु-उद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं के लिए डिप्लोमा (1½ वर्ष)	डिप्लोमा	1993-94, 94-95, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07



241.	मर्सी होम, चेतीपूजा - 686104, चंगानर्सरी	बहु-उद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं के लिए डिप्लोमा (1½ वर्ष)	डिप्लोमा	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 05-06 और 06- 07
242.	विकलांग केन्द्र, 13 लुकेरगंज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	बहु-उद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं के लिए डिप्लोमा (1½ वर्ष)	डिप्लोमा	1993-94, 94-95, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 और 05-06
243.	बिहार पुनर्वास और कल्याण संस्थान, जी- 4, पीपुल्स कापरेटिव कोलोनी, जगदम्बा भवन, कंकडबाग, पटना - 800 020	बहु-उद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं के लिए डिप्लोमा (1½ वर्ष)	डिप्लोमा	1994-95, 96-97 और 97- 98
244.	सावली, मानसिक मंदता तथा बाल प्रमस्तिष्कघात संघ, अलंकार, प्लॉट नं० 14, प्रभा कापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोथराउड, पुणे-411 029 महाराष्ट्र	बहु-उद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं के लिए डिप्लोमा (1½ वर्ष)	डिप्लोमा	1998-99 और 99-00
245.	मलंकरा चिकित्सा मिशन अस्पताल, कोलेनचेरी, एरुनाकुलम जिला, केरल - 682311	बहु-उद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं के लिए प्रमाणपत्र (1½ वर्ष)	प्रमाणपत्र	1995-96 और 96-97

## IV. व्यावसायिक परामर्श दाता

246.	होली क्रॉस कालेज, पुनर्वास विज्ञान तथा विशेष शिक्षा विभाग, त्रिरुचिरापल्ली - 620 002.	पुनर्वास विज्ञान (व्यावसायिक परामर्श) में स्नातक (3 वर्ष)	डिग्री	1997-98, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
247.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली - 110 016	शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (9 माह)	डिप्लोमा	अधिसूचना सं० का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित 1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 और 99- 00

348361/06-6

## V. वाणी विकृति विज्ञानी/श्रवण तथा वाणी तकनीशियन

248.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, किशन चन्द मार्ग, बान्द्रा (पश्चिम) मुम्बई - 400 050	i) सम्प्रेषण विकृति में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	अधिसूचना सं० का.आ.. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के तहत अधिसूचित
249.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, (उत्तर क्षेत्रीय केन्द्र), कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली - 110 024	i) श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
250.	राष्ट्रीय अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, एस आर सी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग परिसर, मनोविकास नगर, पोस्ट ऑफिस बोनवेनपल्ली सिकन्दराबाद ।	i) श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
251.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, (पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग परिसर, बोनहुगली, बी.टी. रोड, कोलकाता- 700 090.	i) श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06 और 06-07
252.	विकलांगों के लिए स्वाकार पुनर्वास संस्थान, उपकार सफ़ैल, पिकेट, सिकन्दराबाद - 500 003.	i) श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
253.	संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, भारत सरकार, पीएमआरटी कनन, (मुम्बई निकास गुरुदेवालय अस्पताल परिसर) गुवाहाटी - 781 022, II.	i) श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
254.	जे०एम० वाणी तथा श्रवण संस्थान, इन्द्रपुरी पोस्ट ऑफिस केसरी नगर, पटना - 800 023.	i) श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
255.	चन्द्रभूषण सिंह महिला स्मारक, बाल एवं श्रवण विकलांग, शिक्षा एवं पुनर्वास संस्थान, 4, हसनपुर, आई पी विस्तार, हसनपुर डिपो के निकट, दिल्ली -110 092	i) श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2004-05 और 05-06
256.	चिकित्सा न्यास अस्पताल, एम.जी.रोड, कोच्चि- 682 016.	i) श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 और 07-08

257.	कुशाभाऊ ठाकरे निःशक्त व्यक्ति संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पुनर्वास भवन, पुराना एसओएस गांव के निकट, खजूरी कला मार्ग, पोस्ट - पिपलानी, भोपाल - 462 021.	श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
258.	अयोध्या धर्मार्थ न्यास, एस आर पी के निकट, गेट नं० 2, विकास नगर, वनवाडी गांव, पुणे - 411 040.	श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 और 07-08
259.	विनायक मिशन अर्ध चिकित्सा विज्ञान कालेज (अरुपाडाई विडू चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल परिसर), कुडडालोर मेन रोड, किरुम्बन्नड्डा, बोहरकम्पून पंचायत, पांडिचेरी - 607 402	श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
260.	विकलांग व्यक्ति संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, महामाया मंदिर के निकट, सुन्दर नगर, जिला मंडी -174 401	श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2003-04 और 04-05
261.	सम्बद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संकाय, विनायक मिशन अनुसंधान प्रतिष्ठान-मानद विश्वविद्यालय विनायक मिशन, किरुम्बन्नड्डा वैरिआर चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, शंकरा मेन रोड (एनएच - 47) अरियानूर, सलेम, तमिलनाडु	श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2006-07
262.	श्री जी वाई जगतार गुरुजी शिक्षण प्रसारक मंडल, ग्राम व पोस्ट वैरताल्लुका बर्षी, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2006-07
263.	अलाइड स्वास्थ्य विज्ञान संकाय, विनायक मिशन अनुसंधान प्रतिष्ठान-मानद विश्वविद्यालय विनायक मिशन, किरुम्बन्नड्डा वैरिआर चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, शंकरा मेन रोड (एनएच - 47) अरियानूर, सलेम, तमिलनाडु -636308	श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2006-07
264.	समेकित विकलांग संस्थान, कारुंदी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (ससुवाही) वाराणसी - 221005	श्रवण भाषा और वाणी में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11

## VI. चिकित्सा मनोवैज्ञानिक

265.	केन्द्रीय मनोविकार संस्थान, भारत सरकार, कांके, रांची-834006	चिकित्सा मनोविज्ञान में एम.फिल (2 वर्ष)	एम.फिल डिग्री	2006-07 और 07-08
266.	मनीपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी, (विश्वविद्यालय वत) कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल-576 119.	चिकित्सा मनोविज्ञान में एम.फिल (2 वर्ष)	एम.फिल डिग्री	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10

267.	श्री राम चन्द्र मेडिकल कालेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (विश्वविद्यालय वत) 1, राम चन्द्र नगर, पोरूर, चेन्नै - 600 116.	i) चिकित्सा मनोविज्ञान में एम.फिल (2 वर्ष)	एम.फिल डिग्री	2004-05, 05-06, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
268.	रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकियाट्री एंड एलाइड साइंसेज, कांके, रांची - 834006	i) चिकित्सा मनोविज्ञान में एम.फिल (2 वर्ष)	एम.फिल डिग्री	2006-07 और 07-08
269.	डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, रास बिहारी शिक्षा प्रांगण, 92, आचार्य प्रफुल्लचन्द्र रोड, कोलकाता - 700 009	ii) चिकित्सा मनोविज्ञान में एम.फिल (2 वर्ष)	एम.फिल डिग्री	2005-06 और 06-07
270.	स्वीकार रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड, उपकार सर्किल पीकेट, सिकन्दराबाद - 500 003.	i) चिकित्सा मनोविज्ञान में एम.फिल (2 वर्ष)	एम.फिल डिग्री	2005-06

### VII . श्रवण सहायक यंत्र और ईयर मॉडल तकनीशियन

271.	अखिल भारतीय वाणी एवं श्रवण संस्थान मानव गंगोत्री, मैसूर - 570 006.	i) श्रवण सहायक यंत्र और ईयर मॉडल तकनीशियन में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
------	--	---	----------	---------------------------------------

### VIII . पुनर्वास मनोविज्ञानी

272.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मनोविकास नगर, पोस्ट ऑफिस बोबेनपल्ली, सिकन्दराबाद - 500 009.	i) पुनर्वास मनोविज्ञान में एम.फिल (2 वर्ष)	एम.फिल डिग्री	2004-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
273.	दि रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी (इंडिया) "आशा", 501, 47वां क्रॉस, 9वां मं. 5 ब्लॉक, जयानगर, बंगलूर - 560 041.	i) एम.एससी. (साइको-सोशल रिहैबिलिटेशन (2 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिग्री	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
274.	डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, रास बिहारी शिक्षा प्रांगण, 92, आचार्य प्रफुल्लचन्द्र रोड, कोलकाता - 700 009	ii) पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1992-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
275.	स्वीकार रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड, उपकार सर्किल पीकेट, सिकन्दराबाद - 500 003.	i) पुनर्वास मनोविज्ञान में एम.फिल. (2 वर्ष) ii) पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1 वर्ष)	एम.फिल डिग्री स्नातकोत्तर डिप्लोमा	05-06 और 06-07 2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
276.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मनोविज्ञान विभाग, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) - 202 002.	i) पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04 और 04-05

277.	अमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ विहेवियरल हेल्थ एंड एलाइड साइंसेज, अमिटी यूनिवर्सिटी, अमिटी कैम्पस, सेक्टर 125, नोएडा, उत्तर प्रदेश	i) पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1 वर्ष) ii) पुनर्वास मनोविज्ञान में एम.फिल. (2 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा एम. फिल डिग्री	2006-07  2006-07
------	--	--	--	------------------------

## IX. पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता

278.	होली क्रॉस कालेज, पुनर्वास विज्ञान एवं विशेष शिक्षा विभाग, त्रिचिरापल्ली - 620 002.	i) पुनर्वास विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (2 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिग्री	1997-98, 2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
------	---	---	--------------------	--

## X. मानसिक मंदता में पुनर्वास व्यावसायिक

279.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मनोविकास नगर, पोस्ट ऑफिस बोबैनपल्ली, सिकन्दराबाद - 500 009.	i) मानसिक मंदता में स्नातक (3 वर्ष) ii) पुनर्वास सेवा (मानसिक मंदता) में स्नातक (4 वर्ष)	डिग्री  डिग्री	1994-05, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99 और 99-00  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04 और 04-05
------	---	---	----------------------	---

## XI. ओरियंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट

280.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, 116, राजपुर रोड, देहरादून - 248 001	i) ओरियंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग कोर्स (छ: माह का पाठ्यक्रम)	प्रमाणपत्र	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 और 99-00
281.	दि वाईएमसीए कालेज ऑफ फिजीकल एजुकेशन, नंदम, चेन्ने - 600 035.	ii) बेचलर इन मोबिलिटी साइंस (1 वर्ष)	डिग्री	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10

## XII. समुदाय आधारित पुनर्वास व्यावसायी

282.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मनोविकास नगर पोस्ट ऑफिस बोबैनपल्ली, सिकन्दराबाद - 500 009.	i) शीघ्र उपचार (मानसिक मंदता) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07 और 07-08
283.	शिशु सरोथी बहु-विकलांगता पुनर्वास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रामकृष्ण मिशन रोड के पीछे, बीरुवाई, गुवाहाटी - 781 016.	i) समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03 और 03-04
284.	मनोविकास, स्पेशल फॉर मेंटली हैंडीकेप्ड, पल्लीसेरीकल पोस्ट, सस्टमकोटा, कोल्लम - 690 521.	i) समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06 और 06-07

285.	शांति स्मारक पुनर्वास केन्द्र, 108 डी, मास्टर कैंटीन बिल्डिंग, स्टेशन स्क्वायर, यूनिट-3, भुवनेश्वर - 751 001.	i) समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04 और 04-05
286.	श्री राम कृष्ण मिशन विद्यालय, शिक्षा कालेज, श्री राम कृष्ण विद्यालय पोस्ट, कोयम्बटूर - 641 020.	i) समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
287.	विकलांग केन्द्र ग्रामीण अनुसंधान सोसाइटी, 13, लुकरगंग, इलाहाबाद - 212 001.	i) समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2003-04, 04-05, 05-06 और 06-07
288.	भारतीय प्रमस्तिष्क घर संस्थान, पी-35/1, तापटोला रोड, कोलकाता - 700 088.	i) समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2002-03, 03-04 और 04-05
289.	बंगलौर विश्वविद्यालय समुदाय आधारित पुनर्वास नेटवर्क (दक्षिण एशिया), 134, प्रथम ब्लॉक, छठा मैन, तृतीय फेज, बौवासंकरी तीसरा स्टेशन, बंगलौर - 560 085	i) समुदाय आधारित पुनर्वास - योजना एवं प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वार्षिक) - दूरस्थ शिक्षा प्रणाली ii) समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (1 वर्ष)	नातकोत्तर डिप्लोमा  डिप्लोमा	2004-05 और 05-06  2004-05 और 05-06

290.	पश्चिमबंगा राज्य प्रतिबंधी सम्मिलनी, 4, संतोषपुर एवेन्यु कोलकाता - 700 075	i) समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2005-06 और 06-07
291.	रावतापुक्कम हमेरीजक्स ग्रामीण केन्द्र, तिरुचीतरमबलम पो. 605111, जिला विल्लुपुरम, तमिलनाडु	i) समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
292.	प्रगति चैरीटी, प्लॉट नं. 62, वूड काम्पलेक्स, समीप अय्यपा मंदिर, नैल्लौर 524 004	i) समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2005-06
293.	विकलांग कल्याण संघ, ए.एम. स्केयर काम्पलेक्स, चावमानी रोड, कालीकट 673001	i) समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (1 वर्ष)	डिप्लोमा	2005-06 और 06-07

### XIII. पुनर्वास परामर्शक/प्रशासक

294.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मनोविकास नगर, पो.ओ. बोवनपल्ली, सिकंदराबाद - 500 009.	i) विकलांगता पुनर्वास प्रशासन में स्नातकोत्तर (2 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिग्री	2004-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 और 10-11
295.	ठाकुर हरिप्रसाद अनुसंधान एवं मानसिक विकलांग पुनर्वास संस्थान, विवेकानंद नगर, दिलसुख नगर, हैदराबाद - 500 660	ii) विकासात्मक पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10

## XIV. प्रोस्थेटिक्स आर्थोटिक्स/ पुनर्वास तकनीशियन

296.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, बोन हुगली, जी.टी. रोड, कोलकाता - 700 090.	i) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स में स्नातक (4½ वर्ष) ii) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (2 ½ वर्ष)	डिग्री  डिप्लोमा	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07  (वर्ष 1993 में अनुसूची में अधिसूचित) 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99 और 99-00
297.	शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग, सबदरजंग अस्पताल, अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110 016.	i) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (2½ वर्ष)	डिप्लोमा	अधिसूचना सं० का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित 1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
298.	राजकीय पुनर्वास चिकित्सा संस्थान, के.के.नगर, चेन्नै - 600 083.	i) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स में डिप्लोमा (2½ वर्ष)	डिप्लोमा	अधिसूचना सं० का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित 1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
299.	राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ओलातपुर, पो.ओ. बेरोई, जिला कटक - 754 010	i) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (2 ½ वर्ष) ii) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स में स्नातक (2 वर्ष)	डिप्लोमा  डिग्री	अधिसूचना सं० का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 & 98-99  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07

300.	अखिल भारतीय शारीरिक आयुर्विज्ञान व पुनर्वास संस्थान, हाजी अली पार्क, खाडाई मार्ग, महालक्ष्मी मुंबई - 400 034.	i) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स में विज्ञान स्नातक (3 वर्ष)  ii) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स में स्नातक (4½ वर्ष)	डिग्री  डिग्री	अधिसूचना सं० का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित 1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 और 99-00  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 और 09-10
301.	शिफिलिन कुष्ठरोग अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, काशीगिरी, एस.एल.आर. सैनेटोरियम पो.ओ., जिला नार्थ आरकोट, तमिलनाडु - 632 106.	i) प्रोस्थेटिक्स टेक्नीशियन कोर्स (18 माह)  ii) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (2½ वर्ष)	डिप्लोमा	अधिसूचना सं० का.आ. 288(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 के अधीन अधिसूचित 1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09
302.	भारतीय मेरुदंड क्षति केन्द्र, सेक्टर सी, वसंत कुंज, नई दिल्ली- 110 070	i) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स में मास्टर (2 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	2005-06
303.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, हेल्थ इंस्टीट्यूट रोड, समीप केन्द्रीय कारागार, बेयूर, पटना - 800 001.	i) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स में स्नातक (3½ वर्ष)	डिग्री	1998-99 और 99-00
304.	पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जनसंस्थान, (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) 4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली - 110 002	i) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स में स्नातक (4½ वर्ष)	डिग्री	2004-05 और 05-06
305.	मॉबीलीटी इंडिया, पो.बो.न. 7812, पहली और पहली 'ए' क्रास, जे.पी. नगर, दूसरा फेज, बंगलौर 560 078	i) पुनर्वास थैरेपी सहायक में सर्टिफिकेट कोर्स, (एक वर्षीय)	प्रमाणपत्र	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
306.	क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, पो.ओ. थोरापुडी, वेल्तोर - 632 002.	i) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (2½ वर्ष)	डिप्लोमा	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
307.	कुशाभाऊ ठाकरे विकलांगजन संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, पुनर्वास भवन, समीप पुराना एसओएस ग्राम, खजुरीकलन मार्ग पो. पिपलाना, भोपाल - 462 021.	i) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स में सर्टिफिकेट (1 वर्ष)	प्रमाणपत्र	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 और 08-09



308.	नटराज अनुसंधान संस्थान व प्रशिक्षण महाविद्यालय, पीएनआर विकलांगजन सहित व पुनर्वास सोसाइटी, 51 विद्यानगर, भावनगर - 364 002.	i) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स में सर्टिफिकेट (1 वर्ष)	प्रमाणपत्र	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07
309.	संयुक्त विकलांग क्षेत्रीय केन्द्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बेमीना, बाई पास, (समीप महिला पोलोटेक्नीक कालेज) श्रीनगर -190018	i) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स में सर्टिफिकेट (1 वर्ष)	प्रमाणपत्र	2003-04, 04-05, 05-06 और 06-07
310.	प्राप्तांगीया व प्रशिक्षण केन्द्र व फिजियोथेरापी कालेज, सिविल अस्पताल केम्पस, अश्व, अहमदाबाद 380016	i) प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स में स्नातक (4½ वर्ष)	डिग्री	2005-06, 06-07 और 07-08. "

[फा. सं. 25-08/2004-डी.डी.-III]

जी. एन. पेगू, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2006

**G.S.R. 686(E).**—In exercise of the powers conferred by the section 11 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992), the Central Government, after consulting the Rehabilitation Council of India, hereby amends the Schedule to include the following qualifications therein, namely:-

2. In the said Act, for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

## "THE SCHEDULE

(See section 11)

## RECOGNISED REHABILITATION QUALIFICATIONS GRANTED BY UNIVERSITIES OR INSTITUTIONS IN INDIA

Sl.No	University/Institution	Name of the Course	Qualification	Validity of Recognition/Remarks
1	2	3	4	5

## I. AUDIOLOGISTS AND SPEECH THERAPISTS

1.	All India Institute for Speech & Hearing Manus Gangothri, Mysore - 570 006	i) B.Sc (Speech and Hearing) (3 years)	Degree	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993  1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 & 98-99
		ii) Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
		iii) M.Sc (Speech & Hearing)	Post Graduate Degree	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99.

348365/06-7

		iv) Master in Audiology and Speech-Language Pathology (2 Years)	Post Graduate Degree	99-00 & 00-01 2001-02, 02-03, 03-04, 04-05 & 05-06
		v) M.Sc. (Audiology) (2 Years)	Post Graduate Degree	2003-04, 04-05, 05-06 & 06-07
		vi) M.Sc. (Speech - Language Pathology) (2 Years)	Post Graduate Degree	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
2.	Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped Kishenchand Marg Bandra ( West) Mumbai - 400 050	i) B.Sc (A. & S.T.) ( 3 Years)	Degree	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993 1996-97, 97-98, 98-99, 99-00 & 00-01
		ii) Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11.
		iii) M.Sc (Speech Language & Hearing ) ( 2 Years)	Post Graduate Degree	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00 & 00-01
		iv) Master in Audiology and Speech-Language Pathology (2 Years)	Post Graduate Degree	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11.
3.	Post Graduate Institute of Medical Education and Research, (Deemed University) Sector-12, Chandigarh - 160 012.	i) B.Sc Speech & Hearing ( 3 Years)	Degree	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 & 98-99
		ii) Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 & 05-06
		iii) Master in Audiology and Speech-Language Pathology (2 Years)	Post Graduate Degree	1996-97, 2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 & 05-06

4.	Topiwala National Medical College C/O Dean, B.Y.L. Charitable Hospital, Dr. A.L. Nair Road, Mumbai- 400 008	i) B.Sc (Audiology and Speech Therapy) (3 Years)	Degree	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993
		ii) Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 & 99-00
		iii) Master in Audiology and Speech -Language Pathology (2 Years)	Post Graduate Degree	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10  1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
5.	All India Institute of Medical Science, (Deemed University), Ansari Nagar, New Delhi.	i) B.Sc (Hons.) in Speech & Hearing (3 Years)	Degree	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993  1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02 & 02-03
6.	Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, SRC, (NIMH Campus), Manovikas Nagar, P.O. Bowenpally, Secunderabad - 500 009.	i) B.Sc (Hearing Language & Speech) (3 Years)	Degree	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01 & 01-02
		ii) Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
		iii) Master in Audiology and Speech-Language Pathology (2 Years)	Post Graduate Degree	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
7.	Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, (Northern Regional Centre) Kasturba Niketan, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110 024.	i) Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	2002-03, 03-04, 04-05 & 05-06
8.	Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, ( Eastern Regional Centre ) NIOH Campus, Bon-Hooghly, B.T. Road, Kolkata - 700 090	i) Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
		ii) Master in Audiology and Speech-Language Pathology (2 Years)	Post Graduate Degree	2005-06 & 06-07.

9.	Sweekar Rehabilitation Institute for Handicapped, Upkar Circle, Picket, Secunderabad – 500 003	i)	Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
		ii)	Master in Audiology and Speech-Language Pathology (2 Years)	Post Graduate Degree	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
10.	Institute of Speech & Hearing Hennur Road, Bangalore – 560 084.	i)	Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
		ii)	Master in Audiology and Speech-Language Pathology (2 Years)	Post Graduate Degree	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
11.	Institute of Health Sciences College of Speech & Hearing, Dr. M. V. Shetty Memorial Trust, A. B. Shetty Circle, Mangalore – 575 001.	i)	Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
		ii)	Master in Audiology and Speech-Language Pathology (2 Years)	Post Graduate Degree	2002-03, 03-04, 04-05 & 05-06
12.	College of Allied Health Sciences, Manipal Academy of Higher Education (Deemed University) Manipal – 576 119.	i)	Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
		ii)	Master in Audiology and Speech-Language Pathology (2 Years)	Post Graduate Degree	2002-03, 03-04, 04-05 & 05-06
13.	Institute for Communicative and Cognitive Neurosciences Kavalappara, Shoranur, Kerala – 679 523.	i)	Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
		ii)	Master in Audiology and Speech-Language Pathology (2 Years)	Post Graduate Degree	2006-07
14.	AWH Institute for the Handicapped Post Box No. 59, 17/194A, M' Square Complex, Pavamani Road Calicut-673	i)	Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	2002-03, 03-04, 04-05 & 05-06
15.	National Institute of Speech & Hearing Palace Road, Poojappura, Trivandrum – 695 012.	i)	Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07

16.	J.S.S Mahavidyapeetha J.S.S. Inst. of Speech & Hearing, J.S.S. Dental College Campus, Sri Shivarathreshwaranagar Mysore - 570 015.	i) Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
17.	Mar Thoma College of Special Education, Badiakda, Kasargod, Cherkala Chengala P.O., Kasargod - 671 541, Kerala Kannur University, Kannur, Kerala.	i) Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
18.	Helen Keller's Institute of Research and Rehabilitation for the Disabled Children Bank Colony, Ramakrishnapuram, Secunderbad - 500 056.	i) Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	2002-03, 04-05, 05-06 & 06-07
19.	Indian Institute of Health Education & Research, Health Institute Road, Near Central Jail, Beur, Patna - 800 001.	i) Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	1999-00, 00-01, 01-02 & 02-03
20.	Institute of Health Sciences, N2/41, IRC Village Nayapalli Bhubneswar- 751 015	i) Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	2001-02, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08.
21.	Vinayaka Mission's Research Foundation (Deemed University) Department of Audiology and Speech Pathology, Faculty of Allied Health Sciences, VMRF-DU, Aarupadai Veedu Medical College Campus, Kirumambakkam, Pondicherry-607 402	i) Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	2004-05, 05-06 & 06-07
22.	Research Education And Audiological Development Society (READS), Dundlod House, Civil Lines Jaipur-302 019	i) Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	2003-04, 04-05, 05-06 & 06-07
23.	Sri Ramachandra Medical College & Research Institute (Deemed University), 1, Ramachandra Nagar, Porur, Chennai - 600 116	i) Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)  ii) Master in Audiology and Speech-Language Pathology (2 Years)	Degree  Post Graduate Degree	1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10  2004-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
24.	Kasturba Medical College Manipal Academy of Higher Education (Deemed University) Light House Hill Road, Post Box No. 53 Mangalore-575 001	i) Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (4 Years including Internship)	Degree	2005-06 & 06-07
25.	Faculty of Allied Health Science, Vinayaka Mission's Research Foundation- Deemed University,	i) Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology	Degree	2006-07

	Vinayaka Mission's Kirubananda Variyar Medical College Campus, Sankari Main Road (NH 47), Ariyanoor, Salem-636308, Tamil Nadu.	(4 Years including Internship)		
--	--	--------------------------------	--	--

\* Bachelor of Science (Speech & Hearing), Bachelor in Science (Audiology and Speech Rehabilitation), Bachelor of Science (Hearing Language & Speech) are equivalent to Bachelor in Audiology and Speech-Language Pathology (BASLP) course.

Master of Science (Speech & Hearing) is equivalent to Master in Audiology and Speech-Language Pathology (MASLP) course.

## II. TEACHERS OF SPECIAL SCHOOLS AND INTEGRATED SCHOOLS FOR THE DISABLED

(In the field of Visual Impairment)

26.	Deptt. of Special Education Andhra University, Vishakhapatnam (A.P.)	i) M.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Post Graduate Degree	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
		ii) B.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Degree	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
27.	Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Education, Sri Ramakrishna Vidyalaya Post, Coimbatore - 641 020	i) M.Ed. Special Education Multi-Category) (1 Year)	Post Graduate Degree	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 & 05-06
		ii) M.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Post Graduate Degree	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05 & 05-06
		iii) B.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Degree	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
28.	Sri Ramakrishna Mission Vivekananda Educational Research Institute (Deemed University) - International Human Resource Development Center Sri Ramakrishna Vidyalaya Post, Coimbatore - 641 020	i) M.Ed. Special Education (Visual Impairment)- On Credit basis	Post Graduate Degree	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
		ii) B.Ed. Special Education (Visual Impairment)- On Credit basis	Degree	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
29.	Jamia Millia Islamia, Institute of Advanced Studies in Education, Faculty of Education, Maulana Mohammed Ali Jauhar Marg, New Delhi-110 025	i) M.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Post Graduate Degree	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
		ii) B.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Degree	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11

30.	Department of Special Education, Kurukshetra University, Kurukshetra.	i) M.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Post Graduate Degree	2004-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
		ii) B.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Degree	2004-05, 05- 06, 06-07, 07- 08 & 08-09
31.	S.N.D.T. Women's University Deptt. of Special Education, Sir Vithaldas Vidyavihar, Juhu Road, Santacruz (W), Mumbai - 400 049.	i) B.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Degree	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05 & 05-06
32.	Avinashlingam Deemed University, Institute of Home Science & Higher Education for Women Coimbatore - 641 043.	i) M.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Post Graduate Degree	1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
		ii) B.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Degree	1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
33.	Banaras Hindu University Faculty of Education, kamachha Varanasi	i) B.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Degree	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
		ii) M.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Post Graduate Degree	06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
34.	Mahatma Gandhi Gramodayay Vishvidyalayam Chitrakoot, Satna-210 204 (M.P)	i) B.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Degree	1993-94, 94-95, 95-96 & 96-97
35.	Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University Chitrakoot, U.P-210 204	i) M.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Post Graduate Degree	2005-06 & 06-07
		ii) B.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Degree	2004-05, 05-06 & 06-07
36.	Andhjan Shikshan Mandal Ghoddod Road Surat-395 007	i) B.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Degree	2005-06, 06-07, 07-08 & 08-09
37.	National Institute for the Visually Handicapped, 116, Rajpur Road, Dehradun - 248 001	i) Teacher Training Course of Visually Handicapped - Secondary Level (10 months)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 & 99-00
		ii) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Secondary Level. (1 Year)	Diploma	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04 & 04-05
		iii) B.A. - B.Ed. Special Education (Visual Impairment) (4 Years)	Degree	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08

38.	N.K.T. National College of Education for Women, 21, Dr. Basant Road, Triplicane, Madras-600 005	i) B.Ed.Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Degree	2003-04, 04-05, 05-06 & 06-07
39.	Training Centre for Teachers of Visually Handicapped, H. NO.10-3- 60, Nehru Nagar, East Marredpally Secunderabad - 500 026.	i) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Secondary Level (1 Year)  ii) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma  Diploma	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01 & 01-02  2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
40.	Training Centre for Teachers of the Visually Handicapped, Kadam Kuan, Patna - 800 003	i) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Secondary Level (1 Year)  ii) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma  Diploma	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02 & 02-03  2003-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
41.	Blind Relief Association Lal Bahadur Shastri Marg New Delhi.	i) Teacher Training Course for the Visually Handicapped Children- Secondary Level (10 Months year)  ii) Diploma in Special Education (Visual Impairment)-Secondary Level (1 Year)  iii) Diploma in Special Education (Visual Impairment) - Primary Level (2 Years)	Diploma  Diploma  Diploma	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 & 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02-03 & 03-04  2004-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
42.	Blind People's Association Dr. Vikram Sarabhai Road, Vastrapur, Ahmedabad - 380 015.	i) Course for Training Teachers of Visually Handicapped Children Secondary Level (10 months)  ii) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Secondary Level (1 Year)  iii) B.Ed Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Diploma  Diploma  Degree	1995-96, 96-97, 97-97, 98-99 & 99-00  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04 & 04-05  2006-07, 07-08 & 08-09
43.	Shri K.K. School & Home for Blind Opp. New Filter, Vidyanagar, Bhavnagar - 364 002	i) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	2002-03, 03- 04, 04-05, 05- 06, 06-07, 07-08 & 08-09



44.	Training College for Teachers of the Deaf & Blind, Navrangpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380 009.	i) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Secondary Level (1 Year)	Diploma	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03 & 03-04
		ii) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	2004-05, 05-06, 06-07 & 07-08
45.	Shree Ramana Maharishi Academy for the Blind, 3 <sup>rd</sup> Cross, 3 <sup>rd</sup> Phase, (Near Ragi Gudda), J.P. Nagar, Bangalore - 78.	i) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Secondary Level (1 Year)	Diploma	2000-01 & 01-02
		ii) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05 & 05-06
46.	Helen Keller Govt. Teacher Training Centre for the Visually Handicapped Children, Govt. of Karnataka, Tilak Nagar, Mysore - 570 021.	i) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Secondary Level (1 Year)	Diploma	2000-01 & 01-02
		ii) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
47.	National Association for the Blind "Prerana" M.P. Housing Board Colony, Slice-III Herapur, Raipur Chhattisgarh	i) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	2002-03
48.	Kerala Federation of the Blind, Training Centre for the Teachers of V.H., P.O. Karimpuzha, Palakkad, Kerala - 679 513.	i) Training Teachers Course for the Visually Handicapped Children-Primary Level (10 Months)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01 & 01-02
		ii) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
49.	Mahesh Dristihein Kalyan Sangh, Scheme No. 54, Behind Satya Sai Vidyala Vihar, A.B. Road, Indore.	i) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Secondary Level (1 Year)	Diploma	1999-00, 00-01 & 01-02
		ii) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07

50.	National Association for the Welfare of the Physically Handicapped, Near Amravati University, Gate No.3, Mardi Road, Amravati Campus, Amravati - 444 602.	i) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Secondary Level (1 Year)	Diploma	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02 & 02-03
		ii) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
51.	The Poona School & Home for the Blind Teachers Training Centre, 14-17, Koregaon, Park, Dr. S.R. Machave Road, Poona - 411 001.	i) Teacher Training Course for the Visually Handicapped - Primary Level (10 Months)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 & 99-00
		ii) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
52.	National Association for the Blind, Rustam Aplaival Complex, 124-127, Cotton Depot, Cotton Green, Mumbai - 400 033.	i) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 & 05-06
53.	Montfort Centre for Education Danakgre, Tura, Meghalaya - 794 101	i) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
54.	Training Centre for Teachers of the Visually Handicapped, S.I.R.D. Campus, Unit - 8 Bhubaneshwar - 751012.	i) Teacher Training Course for the Visually Handicapped - Primary Level (10 Months)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 00-01 & 01-02
		ii) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	2002-03, 03-04, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
55.	Teacher Training Centre For The Visually Handicapped, Govt. Institution for the Blind, Braille Bhavan, Jamalpur, Ludhiana, Punjab	i) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	2002-03 & 03-04
56.	L.K.C. Jagdamba Andh Vidyalaya Samiti, Hanumangarh Road, Sriganga Nagar - 335 001	i) Teacher training Course for the Visually Handicapped Children - Primary Level (10 Months)	Diploma	1997-98 & 98-99
		ii) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09

57.	Regional Training Centre C/o Govt. Hr. Sec. School for the Blind, Poonamalle, Chennai - 600 056.	i) Diploma in teaching the Blind ( 6 Months At School + 12 months by correspondence )  ii) Special Examination in Teaching the Blind ( 10 Months)  iii) Diploma in Special Education (Visual Impairment) - Primary Level (2 Years)	Diploma  Certificate  Diploma	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993  Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993  1998-99, 99-00, 00-01, 01-02 & 02-03
58.	Government Inter College for the Blind Mohan Road Lucknow	i) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 06-07 & 07-08
59.	Isaraji Devi Shikshan Sansthan 23-B, Park Road, Allahabad.(U.P.)	i) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	2004-05 & 05-06
60.	Vivekananda Mission Asram, Vivekanagar, P.O. Chaitanyapur (Haldia), District Medinipur, West Bengal - 721 645	i) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
61.	Ramakrishna Vivekanada Mission 7, Riverside Road, Barrackpore, North 24 Parganas, West Bengal -743 101	i) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Primary Level (2 Years)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06 & 06-07
62.	Ramakrishna Mission Blind Boys Academy, Narendrapur, Kolkata -700 103 (West Bengal)	i) In Service Primary Level Teachers of the Visually Handicapped (18 months)  ii) Secondary Level Teachers of the Visually Handicapped. ( 10 months)  iii) Diploma in Special Education (Visual Impairment) Secondary Level (1 Years)  iv) B.Ed. Special Education (Visual Impairment) (1 Year)	Diploma  Diploma  Diploma  Degree	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 & 98-99  Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993 1994-95,95- 96,96-97,97- 98 & 98-99  1999-00, 00-01,01-02, 02-03 & 03-04  2004-05 & 05- 06

63.	Madhya Pradesh Bhoj (Open) University ITI, Gas Rahat Bhavan, Govindpura, Bhopal-23, Madhya Pradesh	i) B.Ed (Special Education)- Distance Education)- Visual Impairment ( 2 yrs )	Degree	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
		ii) Post Graduate Professional Diploma ( 18 months)	Diploma	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
		iii) Foundation Course (Special Education-Distance Education ( 3 Months)	Certificate	2002 to 2004 2004 to 2009
64.	Netaji Subhash Open University 1, Woodburn Park, Kolkata - 700 020 West Bengal	i) B.Ed. Special Education (Visual Impairment) - Bengali Language (Through Distance Education Mode) (2 Years)	Degree	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
65.	Uttar Pradesh Rajshri Tandon Open University 17, Maharshi Dayanand Marg Thornhill Road Allahabad - 211 001	i) B.Ed. Special Education - Hindi Language (Visual Impairment) (Through Distance Education Mode) (2 Years)	Degree	05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
66.	Helen Keller Institute for the Deaf & Deaf Blind (Aditya Birla Centre), Plot No. CC-1, TTC Industrial Area, Shil-Mahape Road, Off. Thane-Belapur Road, Vashi, Navi Mumbai - 400 701.	i) Diploma in Special Education (Deaf-Blind) (1 Year)	Diploma	2000-2001, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
67.	The Clarke School for the Deaf "Sadhana", No.3, 3 <sup>rd</sup> Street, Dr. Radhakrishna Road, Mylapore, Chennai - 600 004.	i) Diploma in Special Education (Deaf-Blind) (1 Year)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
68.	National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities (Ministry of SJ & E. Govt. of India) East Coast, East Coast Road Kovalam (PO), Kancheepuram-Dist, Tamil Nadu-603112	i) Diploma in Special Education (Deaf-Blind) (1 Year)	Diploma	2006-07, 07-08 & 08-09

*(In the field of Mental Retardation)*

69.	National Institute for the Mentally Handicapped Manovikas Nagar, P.O. Bowenpally, Secunderabad - 500009.	i) M.Ed Special Education (Mental Retardation) (1 Year)	Post Graduate Degree	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
		ii) B.Ed. (Special Education - Mental Retardation) (1 Year)	Degree	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
		iii) Diploma in Vocational Training & Employment (Mental Retardation) (1 Year)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02.

		iv) Diploma in Early Childhood Special Education (Mental Retardation) (1 Year)	Diploma	02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
		v) Diploma in Mental Retardation (1 year)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
		vi) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (1 Year)	Diploma	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 & 98-99
			Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03 & 03-04
70.	National Institute for the Mentally Handicapped, (Northern Regional Centre), Kasturba Niketan, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110 024.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03 & 03-04
71.	National Institute for the Mentally Handicapped, Western Regional Centre (AYJNIHH Campus), K.C. Marg, Bandra (W), Mumbai-400 050	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 06-07, 07-08 & 08-09
		ii) Diploma in Early Childhood Special Education (Mental Retardation) (1 Year)	Diploma	2003-04 & 04-05
72.	National Institute for the Mentally Handicapped, ERC, NIOH Campus, Bon-Hooghly, B. T. Road, Kolkata - 700 090.	i) B. Ed. (Special Education - Mental Retardation) (1 Year)	Degree	2004-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
		ii) Diploma in Mental Retardation (1 Year)	Diploma	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 & 98-99
		iii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
		iv) Diploma in Vocational Training and Employment (Mental Retardation) (1 Year)	Diploma	2004-05 & 05-06
73.	S.N.D.T. Women's University Deptt. of Special Education, Sir Vithaldas Vidyavihar, Juhu Road, Santacruz (W), Mumbai - 400 049.	i) M.Ed. (Special Education - Mental Retardation) (1 Year)	Post Graduate Degree	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07

		ii) B.Ed. (Special Education - Mental Retardation) (1 Year)	Degree	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04 & 04-05
		iii) B.Ed (Special Education-Multi Category) (1 Year)	Degree	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
		iv) Post Graduate Diploma in Teacher Education for children with Learning Disability	Post Graduate Diploma	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01 & 01-02
74.	Sri Ramakrishna Mission Vivekananda Educational Research Institute (Deemed University) - International Human Resource Development Center Sri Ramakrishna Vidyalaya Post, Coimbatore - 641 020	i) M.Ed Special Education (Mental Retardation)-On Credit Basis	Post Graduate Degree	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
		ii) B.Ed Special Education (Mental Retardation)- On Credit Basis	Degree	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
75.	Nirmala Sadan Training College for Special Education, Ernakulam (Distt.), Muvattapuzha, Kerala - 686 661.	i) B.Ed. (Special Education-Mental Retardation) (1 Year)	Degree	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
		ii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
76.	Mind's College of Education Research Sewri Hills, Sewri Road, Mumbai - 400 033.	i) B.Ed. Special Education (Mental Retardation) (1 Year)	Degree	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
		ii) Diploma Mental Retardation (1 Year)	Diploma	1995-96 & 96-97
		iii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
77.	S.B.T. College of Special Education Dr. M.A. Thangaraj Compound, D.R.O. Colony, Madurai - 625 007.	i) B.Ed. (Special Education - Mental Retardation) (1 Year)	Degree	1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
		ii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1995-96 & 96-97

78.	College of Special Education, (Rashtriya Swabhiman) Indraprastha Tal.-Anjar, Distt.-Kachchh Gujarat-370020	i) B.Ed. (Special Education - Mental Retardation) (1 Year)	Degree	2005-06 & 06-07
		ii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2005-06 & 06-07
79.	Society for Mental Health Care, P.O. & Village : Khajurdihi, Via- Katwa, Dist. Burdwan.: 713 518	i) Post Graduate Diploma in Special Education (Mental Retardation) (1 Year)	P.G Diploma	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
		ii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
80.	Manovikas Kendra Rehabilitation and Research Institute for the Handicapped, 482, Madudah, Plot 1-24, Sec-J, Eastern Metropolitan Bypass, Kolkata - 700 078.	i) B.Ed.(Special Education - Mental Retardation) (1 Year)	Degree	2005-06 & 06-07
		ii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
81.	"Shravan" Centre for Rehabilitation of Adult Persons with Mental Retardation, Gandhi Nagar, Near Mahila Ashram, Rohtak-124 001	i) B. Ed. (Special Education - Mental Retardation) (1 Year)	Degree	2004-05 & 05-06
82.	Madhya Pradesh Bhoj (Open) University ITI, Gas Rahat Bhavan, Govindpura, Bhopal-23, Madhya Pradesh	i) B.Ed.- (Special Education- Distance Education)- Mental Retardation (2 yrs)	Degree	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
		ii) Post Graduate Professional Diploma- (Mental Retardation) (18 months)	Diploma	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
		iii) Foundation Course (SE- DE) _Mental Retardation (3 months)	Certificate	2002 to 2004 2004 to 2009
83.	Netaji Subhash Open University 1, Woodburn Park, Kolkata - 700 020 West Bengal	i) B.Ed. Special Education (Mental Retardation) (Through Distance Education Mode) Bengali Language (2 Years)	Degree	2005-06, 06- 07, 07-08, 08- 09 & 09-10
84.	Uttar Pradesh Rajshri Tandon Open University 17, Maharshi Dayanand Marg Thornhill Road Allahabad - 211 001	i) B.Ed. Special Education - (Mental Retardation) (Through Distance Education Mode) Hindi Language (2 Years)	Degree	05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
85.	MIER College of Education Under Model Institute of Education & Research B.C.Road Jammu - 180 001 (J&K)	i) B. Ed. (Special Education - Mental Retardation) (1 Year)	Degree	2005-06

86.	Thakur Hari Prasad Institute of Research & Rehabilitation for the Mentally Handicapped, Vivekananda Nagar, Dilkush Nagar, Hyderabad - 500 660	i) Post Graduate Diploma in Developmental Rehabilitation for the Persons with Disability (1 Year)	P.G Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
		ii) Diploma Mental Retardation (1 Year)	Diploma	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 & 98-99
		iii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
87.	Rural Project of Thakur Hari Prasad Institute of Research & Rehabilitation for the Mentally Handicapped, H.NO.4/186, Lala Cheruvu, Rajahmundry - 533 106 (A.P.)	i) Diploma in Mental Retardation (1 Year)	Diploma	1993-94, 94-95 & 95-96
		ii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 & 05-06
88.	Regional Centre, NIMH IAS Colony, Balley Road, Danapur Patna - 801503	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1997-98
89.	Royal Seema Seva Samiti No.9, Old Hazur Office Building, Tirupati - 517 501	i) Diploma in Mental Retardation (1 Year)	Diploma	1993-94 & 94-95
		ii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
90.	North Eastern Regional Training Institute for the Mentally Handicapped, Mon Vikash Kendra, Vikashpur, Kahilipara, Guwahati - 781 019	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
91.	Composite Regional Centre, Govt. of India, PMRT Building, (Guwahati Medical College Hospital Campus), Guwahati - 781 032.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
92.	Ayurvedic & Magnetotherapy Research Institute, N.M.C.H. Hospital Road, Gulzar Bagh, Near T. B. Hospital, Patna - 800 007.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2000-01, 01-02, 02-03 & 03-04



93.	Government Institute For the Mentally Handicapped Sector-32, Chandigarh - 160 047.	i) Diploma in Vocational Training & Employment (Mental Retardation) (1 Year)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
94.	"Aakansha", Lion's School for the Mentally Handicapped, Lions Den, Jalvihar Colony, Raipur - 492 007.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
95.	Institute for Special Education Y.M.C.A., Nizamuddin, New Delhi - 110 013.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 & 05-06
96.	Amar Jyoti Rehabilitation and Research Centre, Karkardooma, Vikas Marg, Delhi - 110 092	i) Teacher Training Programme for Multiple Disability NEEDS in General School ii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma  Diploma	1992-93 & 93-94  1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
97.	Delhi Society for the Welfare of the Mentally Retarded Children, Okhla Centre, Okhla Marg, New Delhi.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
98.	Lokvishwas Pratishthan Shantadurga Krupa Ashram, Kapileshwari, Dhavali, Ponda, Goa - 403 401.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06 & 06-07
99.	B.M. Institute of Mental Health Ashram Road, New Nehru Bridge, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
100.	Medical Care Centre Trust Children Hospital, Kareli Baug, Vadodara - 390 018	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
101.	Gujarat Kelvani Trust Mangal Prabhat Building Opp. St. Xavier High School, Mirzapur, Ahmedabad - 380 001	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
102.	'Ankur' Special School for Mentally Retarded, Plot No. 1945, Near Working Women's Hostel, Sardarnagar Circle, Bhavnagar - 364 002.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10

348362/66-9

103.	Blind Welfare Council Hospital Road, Near Railway sOver Bridge, P.O. Box - 115, Dahod - 389 151.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
104.	ARPAN, Institute for the Mentally Handicapped, ( Formerly Red Cross Institute for the Mentally Handicapped Children ) Gandhi Nagar, Rohtak - 124 001	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
105.	Deepshikha Institute for Child Development & Mental Health, Swami Shradhanand Road, Ranchi - 834 001.	i) Diploma Mental Retardation ( 1 Year)  ii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma  Diploma	1994-95, 95-96 & 96-97  1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
106.	Dr. T.M.A.Pai College of Special Education Kunjibettu, Udupi - 576 102. Karnataka	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04 & 04-05
107.	St. Agnes Teacher Training Institute for the Special Education Bendore, Mangalore - 575 002	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1995-96, 96-97, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
108.	Karnataka Parents' Association for the Mentally Retarded Citizens, AMC Compound, Off. Hosur Road, Near Kidwai Memorial Hospital, Bangalore - 560 029	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1999-00, 00- 01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
109.	Central Institute on Mental Retardation, Murinjapalam, Medical College P.O Thiruvananthapuram- 695 011	i) Diploma in Mental Retardation (1 Year)  ii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma  Diploma	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 & 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
110.	RSMH Teacher Training Institute 15/769 , Velliparamba Calicut - 673 008 Kerala	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10

111.	Bala Vikas Teachers Training Centre, Bala Vikas Society, Bala Vikas Building, Peroorkada P.O., Thiruvananthapuram - 695 005.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
112.	Faith India Faith India Bhawan, Puthencruz P.O., Distt. Ernakulam Kerala - 682 308.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
113.	K.V.M College of Special Education Post Box No. 30, Cherthala, Alappuzha Dist. Kerala-688 524	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
114.	State Institute for the Mentally Handicapped, (An Autonomous Institution Under Govt. of Kerala) Pangappara, Thiruvananthapuram Kerala-695 581	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
115.	Sneha Sadan College of Special Education, Ankamaly-683 572, Ernakulam Dist., Kerala	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
116.	Pope Paul Mercy Home (Residential Training Centre for the Mentally Handicapped), Peringandoor - 680 581 Thrissur District.. (Kerala)	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2002-03 & 03-04
117.	Janey Centre for Special Education Pishari Temple Road, Eroor, Kochi - 682 306. Kerala	i) Diploma in Vocational Training & Employment (Mental Retardation) (1 Years)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
118.	AWH Institute for the Handicapped 30/183 A, Medical College P.O. Calicut-673 008	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04 & 04-05
119.	Digdarshika Institute of Rehabilitation & Research Red Cross Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462 016	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
120.	Prabodhini Trust Old Pandit Colony, Sharanpur Road, Nashik - 422 002	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1996-97, 97-98, 98-99, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10

21.	Matoshri Lata Jankidevi Atkar Special Teachers' Training Centre, Zingabai Takli Road, Qesta Nagar, Ward No.1, Nagpur - 440030.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
22.	Wai Aksher Institute 4011, Ganapati Ali, Wai Distt. Satara - 412 803	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
23.	Kanayani Prashikshan and Sanskodhan Society, C.T.S. No. 3024/11, Plot 270/B, Gokhale Nagar, Pune - 16.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
24.	Dikrush Teachers Training in Special Education, Church Road, Juhu, Mumbai - 400 049.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1997-98, 98-99, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
25.	All Manipur Mentally Handicapped Person's Welfare Organisation, Keishamthong, Top Leirak Imphal-795 901	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
26.	Obena Institute for the Mentally Handicapped (Jewels International) A/3, Nayapalli, Opp. Oberoi Hotel, P.O. RRL Campus Bhubaneswar - 751 013	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 & 06-07
27.	Regional Training Centre Department of Social Welfare, Govt. of Rajasthan, Satby Colony, Jaipur	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
28.	The Clarke School for the Deaf "Sadhana", No.3, 3rd Street, Dr. Radhakrishna Road, Mylapore, Chennai - 600 004.	i) Teachers Training for the Mentally Retarded  ii) Diploma in Mental Retardation (1Year)  iii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma  Diploma  Diploma	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 & 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02-03 & 03-04  2004-05, 05-06, 06-07 & 07-08

129.	Bala Vihar Training School Halls Road, Kilpauk Garden, Chennai - 600 010.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
130.	Navajyothi Trust, 40, Meenambedu Road, SIDCO Industrial Estate, Chennai - 600 098.	i) Diploma in Vocational Training and Employment (Mental Retardation) (1 Year)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
131.	Holy Cross College Department of Rehabilitation Science & Special Education Tiruchirapalli - 620 002	i) Associate Degree in Special Education (3 Years)  ii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Degree  Diploma	1992-93, 93-94 & 94-95  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
132.	Vijay Human Services # 4, Lakshmipuram, 3 rd Street, Royapettah, Chennai - 600 014.	i) Diploma in Early Childhood Special Education (Mental Retardation) (1 Year)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06 & 06-07
133.	Mrs Ann Memorial Training Inst. (A Unit of Ecomwel Orthopaedic Centre), Ecomwel Campus Tharamangalam P.O., Salem Dist. - 636 502.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2004-05, 05-06 & 06-07
134.	Chetna (A Society of the Welfare of Handicapped), Sector - C, Aliganj, Lucknow - 226 020.	i) Diploma in Mental Retardation (1 Year)  ii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma  Diploma	1994-95 & 95-96  1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
135.	Integrated Institute for the Disabled, Karaundi, B.H.U., Varanasi- 221 005.	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)  ii) Diploma in Early Childhood Special Education (Mental Retardation) (1 Year)	Diploma  Diploma	2002-03, 03- 04, 04-05, 05-06 & 06-07  2006-07 & 07- 08
136.	RAPHAEL P.O.Box No: 157 Dehradun - 248 001	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
137.	SHELTER 3, Kalbati Lane, Bhadreswar, Dist. Hooghly - 712 124	i) Diploma in Vocational Training and Employment (Mental Retardation) (1 Year)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06 & 06-07

138.	Alakendu Bodh Niketan Residential P-1/4/1, C.I.T Scheme VII-M, V.I.P. Road, Kankurgachi Kolkata - 700 054.	i) Diploma in Mental Retardation (1 Year) ii) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma  Diploma	1994-95, 95-96, 96-97 & 97-98  1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
139.	Prem Ashram Institute of Sisters of Charity Children's Home P.O UNA - 174303	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
140.	Divya Shanti special school, Silas House" 1 st cross road, Robertsonpet, K.G.F -563 122 Karnataka	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (1 Year)	Diploma	1994-95 & 95-96
141.	Tamana Special School D-6 Street, Vasant Vihar, New Delhi	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (1 Year)	Diploma	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02 & 02-03
142.	Avinashlingam Deemed University, Institute of Home Science & Higher Education for Women Coimbatore - 641 043	i) B.Sc in Special Education and Rehabilitation (3 Years)	Degree	1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
143.	Institute of Advance Studies in Education (IASE) MJP Rohilkhand University Bareilly - 243 006. (UP)	i) Bachelor in Special Education ( Learning Disability) (1 Year)	Degree	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05 & 05-06
144.	Life Help Centre for the Handicapped, 2/546 East Coast Road, Neelangarai, Chennai-600041	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years) ii) Diploma in Vocational Training and Employment (Mental Retardation) (1 Year)	Diploma  Diploma	2006-07  2006-07
145.	St. John The Baptist's College of Special Education, Nedumkunnam, Kottayam Dist, Pin-868542, Kerala	i) B.Ed Special Education (Mental Retardation) (1 Year)	Degree	2006-07
146.	Midnapur Rehabilitation Centre for Children. "Gitanjali", Vidya Sagar Road, P.O Midnapore, District Paschim Medinapur-721101	i) Diploma in Special Education (Mental Retardation) (2 Years)	Diploma	2006-07 & 07-08

## (In the field of Hearing Impairment)

147.	Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, SRC, (NIMH Campus), Manovikas Nagar, P.O. Bowenpally, Secunderabad - 500 009	i) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (1 Year)  ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Degree  Diploma	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07  1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
148.	Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Kishenchand Marg, Bandra (W), Mumbai - 400 050.	i) B.Ed (Deaf) (1 Year)  ii) D. Ed ( in Regional Language). (1 Year)  iii) B.Ed.(Special Education Hearing Impairment) (1 Year)  iv) M.Ed (Special Education Hearing Impairment) (1 Year)	Degree  Diploma  Degree  Post Graduate Degree	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993  Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993  2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
149.	Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, (Eastern Regional Centre, NIOH Campus, Bon-Hooghly, B.T. Road, Kolkata - 700 090.	i) D.Ed (Hearing Impairment) (1 Year)  ii) B.Ed. (Special Education Hearing Impairment) (1 Year)  iii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 years)	Diploma  Degree  Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 & 99-00  1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
150.	Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Northern Regional Centre, Kasturba Niketan, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110 024	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07

151.	Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam Tirupati - 517 502.	i) M.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (1 Year) ii) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Post Graduate Degree Degree	2002-03, 04-05 & 05-06 2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
152.	Helen Keller's Institute of Research and Rehabilitation for the Disabled Children Bank Colony, Ramakrishnapuram, Secunderbad - 500 056	i) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Degree	2004-05, 05-06, 06-07 & 07-08
153.	College of Teachers Education, Andhra Mahila Sabha, Durgabai Deshmukh Vidhyapeethem, (Osmania University Campus) Hyderabad - 500 007.	i) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Degree	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
154.	Sh.K.L. Institute for the Deaf, PNR Society for Relief & Rehabilitation, of the Disabled, 51, Vidyanagar, Bhavnagar - 364 002.	i) Teachers Training for the Deaf ii) D.Ed. (Hearing Impairment) (1 Year) iii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years) iv) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma Diploma Diploma Degree	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993 1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 & 99-00 2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10 1999-00, 00-01, 03-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
155.	College of Special Education, (Rashtriya Swabhimani) Bhachau-Bhuj Highway, Indrapashtha, Tal.-Anjar, Distt.-Kachchh Gujarat-370020	i) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (1 Year) ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Degree Diploma	2006-07 2005-06 & 06-07
156.	All India Institute for Speech & Hearing Manus Gangothi, Mysore - 570 006.	i) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Degree	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
157.	AWH Institute for the Handicapped Post Box No. 59, 17/194A, M' Square Complex, Payamani Road, Calicut-673001	i) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Degree	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10



158.	Sri Ramakrishna Mission Vivekananda Educational Research Institute (Deemed University) - International Human Resource Development Center Sri Ramakrishna Vidyalaya Post, Coimbatore - 641 020	i) M.Ed Special Education (Hearing Impairment)-On credit basis (1 Year) ii) B.Ed Special Education (Hearing Impairment)- On credit basis (1 Year)	Post Graduate Degree Degree	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10 2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
159.	Hashu Advani College of Special Education 84-85, Collector's Colony, Chembur, Mumbai - 400 074	i) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Degree	1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
160.	Pandurang Shyamrao Vishaesh Shikshan Adhyapak Mahavidyalaya, Survey No.93/1/B Parvati Payatha Lakshminagar Pune-411009	i) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Degree	1999-00, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
161.	Progressive Education Society P.E.S.W.I.E. Sports Complex, Shivaji Nagar, Pune - 411 008.	i) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Degree	2004-05, 05-06, 06-07 & 07-08
162.	Institute of Advance Studies in Education (IASSE) MJP Rohilkhand University Bareilly - 243 006. (UP)	i) M.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (1 Year) ii) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Post Graduate Degree Degree	1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04 & 04-05 1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04 & 04-05
163.	Rajiv Gandhi Post Graduate College Gram & Post-Kotwa, Jamunipur, Allahabad (U.P.)	i) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Degree	2003-04, 04-05 & 05-06
164.	Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University Chitrakoot, U.P-210 204	i) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Degree	2005-06 & 06-07
165.	Sweekar Rehabilitation Institute for Handicapped, Upkar Circle, Picket, Secunderabad - 500 003.	i) D.Ed. (Hearing Impairment) (1 Year) ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma Diploma	1996-97, 97-98, 98-99 & 99-00 2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
166.	Helen Keller's School for the Deaf 10/7, Near Shiva Lingam, Beedi Factory, Ballary Road Cuddapah - 516 001.	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
167.	Navajeevan Residential Special School for the Deaf Door No. 4-174 S, Ayyalurimetta Ponnapuram Post, Kurnool (Dist.) Nandyal - 518 502.	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10

168.	J.M.Institute of Speech & Hearing Inder Puri, P.O. Keshri Nagar, Patna - 800 023	i) D.Ed (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	1995-96 & 96-97
		ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
169.	Jeevan Vikas Pratishthan Mook Badhir Vidyalaya Signal Camp, Latur-413 539 Maharashtra	i) Diploma in (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	1996-97, 97-98, 98-99 & 99-00
170.	Lions Charitable Trust, "Prayas", Shravan Viklang Sansthan, G.E. Road, Supela, Bhilai-490 023, Chhattisgarh	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
171.	Rajasthan Institute for Training Teachers of the Deaf Kuwada Road, Sanganer Colony, Bhilwara, Rajasthan-311 001	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1998-99 & 99-00
172.	Chandra Bhushan Singh Memorial Mahila, Bal Evam Shravan Viklang Shiksha Evam Punarvas Sansthan 4, Hasanpur, I.P. Extension, Near Hasanpur Depot Delhi-110 092	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
173.	Akshar Trust Meghdoot, R.C. Dutt Road, Alkapuri Baroda - 390 007	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
174.	Training College for Teachers of the Deaf & Blind, Navrangpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380 009	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
175.	Institute of Speech & Hearing, Hennur Road, Bangalore - 560 084.	i) D.Ed. (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	1992-93, 93-94, 94-95, 95-96 & 96-97
		ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11

176.	Karnataka Handicapped Welfare Association Jeevan Bima Nagar, Bangalore - 560 075.	i) D.Ed (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	1994-95, 95-96 & 96-97
		ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
177.	Govt. Teacher Training Centre for the Hearing Handicapped, Tilak Nagar, Govt. of Karnataka, Mysore - 570 021.	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
178.	C.S.I. Training Centre for Teachers of the Hearing Impaired, P.O. Valakom, Kollam - 691 332.	i) D.Ed. (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 & 99-00
		ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
179.	National Institute of Speech & Hearing Palace Road, Poojappura, Trivandrum - 695 012.	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04 & 04-05
		ii) Diploma in Teaching Young Hearing Impaired Children (1 Year)	Diploma	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
180.	Sanjeevani Seva Sangam Behind Satya Sai Vidya Vihar, Scheme No: 54 Indore - 452 008	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	2001-02, 02-03, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
181.	Vaishno Devi Shikshan Prasarak Mandal Tq. Kallam, Dist. Osmanabad Maharashtra	i) Diploma in (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	1997-98 & 98-99
182.	Lt. B.N. Saoji Academy 22-A, Meher Prasad Complex, Central Bazar Road, Ramdaspath, Nagpur-440 010	i) D. Ed. Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	1991-92, 92-93, 94-95, 95-96 & 98-99
		ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10

183.	Deaf and Dumb Industrial Institute North Ambazari Road, Shankar Nagar, Nagpur - 440 010.	i) D. Ed (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	1996-97, 97-98 & 98-99
		ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 & 05-06
184.	V.R. Ruia Mook Badhir Vidyalaya Teacher Training Centre Pune - 30.	i) Teacher Training Course for Deaf Students (1 Year)	Diploma	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 & 98-99
		ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
185.	Maharashtra Samaj Seva Sangh C/o Smt. Mai Lele Shravan Vikas Vidyalaya, Shrirang Nagar, Near Pumping Station Nashik - 422 005	i) Diploma in (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	1997-98 & 98-99
		ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
186.	Ayodhya Charitable Trust Near SRP, Gate No. 2, Vikas Nagar, Wanawadi Village, Pune - 411 040.	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
187.	Society for the Rehabilitation of the Handicapped, Near Govt. Milk Dairy, Miraj, Maharashtra - 416 410.	i) D. Ed (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	1996-97, 97-98 & 98-99
		ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1999-00, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
188.	Montfort Centre for Education Danakgre, Puna, Mumbai - 794 101	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1998-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
189.	Shri. S.Y. Jagtap Guruji Shikshan Prasarak Mandal, AT Post Vairag, Taluka Barshi, Dist. Solapur	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	2005-06 & 06-07

190.	Training Centre for Teachers of the Deaf (A Joint Project of State Govt. & AYJNHH), S.I.R.D. Campus, Unit - 8, Bhubaneswar - 751 012	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04 & 04-05
191.	Research Education & Audiological Development Society (READS), Dundlod House, Civil Lines, Jaipur - 302 019	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
192.	The Clarke School for the Deaf "Sadhana", No.3, 3rd Street, Dr. Radhakrishna Road, Mylapore, Chennai - 600 004.	i) Teacher Training for the Deaf  ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma  Diploma	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28th April, 1993 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 & 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09,
193.	Rangammal Memorial Higher Secondary School for the Hearing Impaired, Sambanthanur Village, Somasipadi Post, Tiruvannamalai Tk. Tiruvannamalai Dist. - 606 611 Tamilnadu.	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05 & 05-06
194.	Training College for Teachers of the Deaf, Aishbagh (Tilak Nagar), Lucknow - 226 004.	i) D.Ed (Hearing Impairment) (1 Year)  ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma  Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 & 99-00  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
195.	Nav Vani School for the Deaf, Village Koirajpur, Harhua P.O., Varanasi - 221 105.	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
196.	U.P. Institute for the Hearing Handicapped 4-7, Malviya Road, George Town, Allahabad - 211 002.	i) D.Ed (Hearing Impairment) (1 Year)  ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma  Diploma	1995-96 & 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11

197.	Training College for the Teachers of the Deaf, 293, Acharya Prafulla Chandra Road, Kolkata - 09.	i) D.Ed (Hearing Impairment) (1 Year) ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma  Diploma	1995-96  2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
198.	Rajiv Samriti Bahu-Udeshiye Sanstha 710/4, Phoole Plant, Kasba Barshi -413 411 Solapur	i) Diploma in Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	1994-95 & 95-96
199.	Sri Swami Samarth Mook Badhir Vidyalaya Solapur Maharashtra	i) Diploma in Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	1994-95 & 95-96
200.	Tilak College of Education Pune-30 Maharashtra	i) Diploma in (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00 & 00-01
201.	Kisanji Gedam Apang Mook Badhir Teachers Training Institute Yasoda Nagar, No: 2, Amravati Maharashtra	i) Diploma in (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98 & 98-99
202.	Sheila Kothavala Institute for the Deaf Rustam Bagh, H.A.L Road Bangalore-17	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	2000-01
203.	Deaf Dumb Association Indore, H.S.School and Multipurpose Training Institute for the Deaf, Scheme No. 71-B, Behind Ranjeet Hanuman, Indore-9, Madhya Pradesh	i) Diploma in Indian Sign Language Interpreting -A & B Level	Diploma	2005-06 & 06-07
204.	The School for the Deaf Enathu P.O, Adoor ( Via) Kerala- 691 526	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	1999-2001
205.	National Inst. of Speech & Hearing Palace Road, Poojappura, Trivandrum - 695 012.	i) Diploma in Teaching Young Hearing Impaired Children (1 Year)	Diploma	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
206.	Bala Vidyalaya Institute for Teachers Training 18, 1st Cross Street, Shastri Nagar, Chennai - 600 020.	i) Diploma in Teaching Young Hearing Impaired Children (1 Year)	Diploma	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
207.	Speech & Hearing Institute and Research Centre, State Resource Centre 10 Mandeville Garden, Kolkata - 700 019	i) Diploma in Teaching Young Hearing Impaired Children (1 Year)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11

208.	Little Flower Convent Hr. Sec. School for the Deaf Old No. 127, New No.4, G.B. Road, Cathedral P.O. Chennai -600 006	i) Senior Diploma in Teaching the Deaf (1 Year)  ii) Junior Diploma in Teaching the Deaf (1 Year)	Diploma  Diploma	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993 2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
209.	Madhya Pradesh Bhoj (Open) University ITI, Gas Rahat Bhavan, Govindpura, Bhopal-23, Madhya Pradesh	i) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) (2 years)  ii) Post Graduate Professional Diploma (18 months)  iii) Foundation Course (SE-DE) (3 months)	Degree  Diploma  Certificate	2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09  2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09  2002 to 2004 2004 to 2009
210.	Netaji Subhash Open University 1, Woodburn Park, Kolkata - 700 020	i) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) - Bengali Language (Through Distance Education Mode) (2 Years)	Degree	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
211.	Uttar Pradesh Rajshri Tandon Open University 17, Maharshi Dayanand Marg Thornhill Road Allahabad - 211 001	i) B.Ed. Special Education -Hindi Language (Hearing Impairment) (Through Distance Education Mode) (2 Years)	Degree	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
212.	Central Institute of Teachers of the Deaf 111rd Flore Municipal School Building, Opposite YMCA, Swimming pool, Agnipara, Mumbai-400 011.	i) D.Ed (Hearing Impairment) (1 Year)  ii) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma  Diploma	1996-97, 97-98 & 98-99  1999-00, 00-01, 01-02, 02-03 & 03-04
213.	Shathashruna Educational Charitable Trust, 7 <sup>th</sup> Cross Robertsonpet, K.G.F. 563 122 Karnataka	i) D.Ed (Hearing Impairment) (1 Year)	Diploma	1993-94 & 94-95
214.	The Education Audiology and Research Centre, "Gulmarg" 62, Nepean Sea Road, Bombay -400 006.	i) Teacher Training course in Hearing Impairment	Certificate	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993  1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 & 99-00

215.	Purvancal Khadi Gramoudyog Vikas Samiti, 581 Old Katra, Allahabad-211003.	i) B.Ed Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Degree	2006-07 & 07-08
216.	Midnapur Rehabilitation Centre for Children. "Gitanjali", Vidya Sagar Road, P.O Midnapore, District Paschim Medinapur-721101	i) Diploma in Special Education (Hearing Impairment) (2 Years)	Diploma	2006-07 & 07-08

*(In the field of Locomotor Impairment & Multiple Disabilities)*

217.	Spastics Society of Northern India, (AADL), Balbir Saxena Marg, Hauz Khas, New Delhi - 110 016.	i) Basic Development Therapy (1 Year)	Certificate	1989-90, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94, 94-95, 95-96 & 96-97
		ii) Post Graduate Diploma in Special Education (Multiple Disabilities : Physical & Neurological) (1 Year)	Post Graduate Diploma	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01 & 01-02
		iii) Post Graduate Diploma in Developmental Therapy (Cerebral Palsy & Neurological Disabilities) (1 Year)	Post Graduate Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
		iv) Post Graduate Diploma in Special Education (Cerebral Palsy & Neurological Disabilities) (1 Year)	Post Graduate Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
218.	The Spastics Society of India, Upper Colaba Road, Opposite Afghan Church, Colaba, Mumbai - 400 005.	i) Post Graduate Diploma in Special Education (Multiple Disabilities : Physical & Neurological) (1 Year)	Post Graduate Diploma	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
219.	REACH 18/2/A/3, Uday Sankar Sarani, Golf Green, Kolkata - 700 095.	i) Post Graduate Diploma in Special Education Multiple Disabilities : Physical & Neurological) (1 Year)	Post Graduate Diploma	1998-99, 99-00, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
220.	Open Learning System, Plot No: G-3/A/1, Gadakana Mouza, P.O: Mancheswar Railway Colony, Near Press Chhak Bhubaneswar-751017 ( Orissa )	i) Post Graduate Diploma in Special Education Multiple Disabilities : Physical & Neurological) (1 Year)	Post Graduate Diploma	1998-99 & 99-2000
		ii) Diploma in Special Education (Cerebral Palsy) (1 Year)	Diploma	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09



221.	Indian Institute of Cerebral Palsy, P-35/1, Taratolla Road, Kolkata - 700 088.	i) Post Graduate Diploma in Special Education - Multiple Disabilities : Physical & Neurological) (1 Year) ii) B.Ed.(Special Education - Locomotor Handicapped) (1 Year)	Post Graduate Diploma  Degree	1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01 & 01-02  2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
222.	Spastic Society of Tamil Nadu, Opp. T.T.T.I., Taramani Road, Chennai - 600 113.	i) Basic Development Therapy Course for Children with Cerebral Palsy and other Neurological Handicaps (1 Year) ii) Post Graduate Diploma in Special Education Multiple Disabilities : Physical & Neurological) (1 Year) iii) Diploma in Special Education (Cerebral Palsy) (1 Year)	Diploma  Post Graduate Diploma  Diploma	1991-92, 92-93 1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 & 05-06  1996-97, 97-98, 98-99, 99-00 & 00-01  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
223.	The Spastics Society of Karnataka 31, 5 th cross, off-5 th Main, Indira Nagar, 1 st stage Bangalore-560 038	i) Diploma in Special Education (Cerebral Palsy) (1 Year)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
224.	Shishu Sarothi Centre for Rehabilitation and Training for Multiple Disability, Off. Ramakrishna Mission Road, Birubai Guwahati-781 016	i) Diploma in Special Education (Cerebral Palsy) (1 Year)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
225.	DISHA, Centre For Special Education Vocational Training & Rehabilitation 450 AB, Nirman Nagar, King's Road Jaipur- 302 019	i) Diploma in Special Education (Cerebral Palsy) (1 Year)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
226.	Raksha Society for the Care of Children with Multiple Handicaps, "Yasmin Manzil" VII / 370, Darragh - es - Salaam Road, Kochangadi, Cochin - 682 002, Kerala	i) Diploma in Special Education (Cerebral Palsy) (1 Year)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06 & 06-07
227.	Smt. Parsanben Narandas Ramji Shah (Talajwala) Society for Relief & Rehabilitation of the Disabled, 51, Vidyannagar, Bhavnagar-364 002 (Guj)	i) Diploma in Special Education (Cerebral Palsy) (1 Year)	Diploma	2005-06 & 06-07
228.	Shiv Kalyan Shikshan Samiti LIG-26, 2 nd floor, Harshwardhan Nagar Bhopal - 462 003	i) Diploma in Special Education (Cerebral Palsy) (1 Year)	Diploma	2003-04, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11

3483 5/06-11

229.	Vidya Sagar (Formerly, "The Spastics Society of India") 1, Ranjit Nagar Road, Kottupuram Chennai - 600 085	i) Post Graduate Diploma in Special Education - (Multiple Disability : Physical & Neurological)	Post Graduate Diploma	1996-97, 97-98 & 98-99
230.	Regional College of Education Bhubaneswar Orissa - 751 007	i) Training programme- In Special Education Multi Category (1 Year)	Diploma	1989-90, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94 & 94-95
231.	Amar Jyoti Rehabilitation and Research Centre, Karkardooma, Vikas Marg, Delhi - 110 092	ii) Teacher Training Programme in Special Education for Cerebral Palsy & Other Disabilities (1 Year)	Diploma	1994-95, 95-96 & 96-97
232.	National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities (Ministry of SJ & E. Govt. of India) East Coast, East Coast Road, Kovalam (PO) Kancheepuram dist Tamil Nadu-603112	i) Diploma in Special Education (Cerebral Palsy) (1 Year)	Diploma	2006-07, 07-08 & 08-09

*(In the field of Autism And Spectrum Disorder)*

233.	Pradeep Centre for Autism Management 203 B, Block-B, Lake Town Kolkata - 700 089	i) Diploma in Special Education : Autism Spectrum Disorder (1 Year)	Diploma	2005-06 & 2006-07
234.	Action For Autism 5, Jasola Institutional Area Behind Sai Niketan New Delhi-110 025	i) Diploma in Special Education : Autism Spectrum Disorder (1 Year)	Diploma	2004-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
235.	Tamana "School of Hope" C.P.W.D. Complex (Near Chinmaya Vidhyalaya), Vasant Vihar New Delhi - 110 057	i) Diploma in Special Education : Autism Spectrum Disorder (1 Year)	Diploma	2004-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
236.	Spastic Society of Karnataka 31, 5 <sup>th</sup> Cross . Off 5 <sup>th</sup> Main, Indira Nagar, 1st Stage Bangalore - 560 038	ii) Diploma in Special Education : Autism Spectrum Disorder (1 Year)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09

### III MULTIPURPOSE REHABILITATION THERAPISTS TECHNICIAN/ ASSISTANT/ WORKER

237.	National Institute for the Mentally Handicapped, (Northern Regional Centre), Kasturba Niketan, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110 024	i) Bachelor in Rehabilitation Therapy (4 Years)	Degree	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
238.	Department of Physical Medicine & Rehabilitation, Safdarjung Hospital, Ansari Nagar, New Delhi - 110 016.	ii) Certificate Course for Multi- Rehabilitation Worker (1 Year)  ii) Diploma in Multipurpose Rehabilitation Workers (1½ Years)	Certificate  Diploma	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993  1996-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07

239.	Composite Regional Centre for Persons with Disabilities, (Ministry of Social Justice & Empowerment) Bemina Bye Pass (Near Women's Polytechnic College, Srinagar-190018.	i) Diploma in Rehabilitation Therapy (2½ Years)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06 & 06-07
240.	Madras Institute to Habilitate Retarded Afflicted D-171, R.V. Nagar, Anna Nagar, Chennai - 600 102	i) Diploma in Multipurpose Rehabilitation Workers (1½ Years)	Diploma	1993-94, 94-95, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
241.	Mercy Home Chethipuzha - 686104. Changanassery	i) Diploma in Multipurpose Rehabilitation Workers (1½ Years)	Diploma	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
242.	Viklang Kendra, 13, Lukerganj, Allahabad (U.P.)	i) Diploma in Multipurpose Rehabilitation Workers (1½ Years)	Diploma	1993-94, 94-95, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 & 05-06
243.	Bihar Rehabilitation and Welfare Institute G-4, People's Co-operative Colony, Jagdamba Bhavan, Kankarbagh, Patna - 800 020	i) Diploma in Multipurpose Rehabilitation Workers (1½ Years)	Diploma	1994-95, 96-97 & 97-98
244.	SAVALI Association for the Mentally Retarded & Cerebral Palsy Children Alankar Plot No. 14, Prabha Co-operative Housing Society, Kothraud, Pune-411 029 Maharashtra	i) Diploma in Multipurpose Rehabilitation Workers (1½ Years)	Diploma	1998-99 & 99-00
245.	Malankara Medical Mission Hospital, Kolenchery, Ernakulam Dist, Kerala- 682311	i) Certificate for Multipurpose Rehabilitation workers (1½ Years)	Certificate	1995-96 & 96-97

## IV. VOCATIONAL COUNSELLORS

246.	Holy Cross College Department of Rehabilitation Science & Special Education Tiruchirapalli - 620 002.	i) Bachelor in Rehabilitation Sciences (Vocational Counselling) (3 Years)	Degree	1997-98, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
247.	National Council of Educational Research and Training, Sri Aurobindo Marg, New Delhi - 110 016	i) Diploma Course in Educational & Vocational Guidance (9 Months)	Diploma	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993 1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 & 99-00

## V. SPEECH PATHOLOGIST / SPEECH &amp; HEARING TECHNICIAN.

248.	Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped Kishenchand Marg Bandra ( West) Mumbai - 400 050	i)	Diploma in Communication Disorder (1 Year)	Diploma	Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993
249.	Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, (Northern Regional Centre), Kasturba Niketan, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110 024	i)	Diploma in Hearing Language and Speech (1 Year)	Diploma	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
250.	AYJNIHH, SRC, National Institute for the Mentally Handicapped Campus, Manovikas Nagar, P.O. Bowenpally, Secunderabad	i)	Diploma in Hearing Language and Speech (1 Year)	Diploma	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
251.	Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, (Eastern Regional Centre, NIOH Campus, Bon-Hooghly, B.T. Road, Kolkata - 700 090.	i)	Diploma in Hearing Language and Speech (1 Year)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06 & 06-07
252.	Sweekar Rehabilitation Institute for Handicapped, Upkar Circle, Picket, Secunderabad - 500 003.	i)	Diploma in Hearing Language and Speech (1 Year)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
253.	Composite Regional Centre, Govt. of India, PMRT Building, (Guwahati Medical College Hospital Campus), Guwahati - 781 032. II.	i)	Diploma in Hearing Language and Speech (1 Year)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
254.	J.M.Institute of Speech & Hearing Inder Puri, P.O. Keshri Nagar, Patna - 800 023.	i)	Diploma in Hearing Language and Speech (1 Year)	Diploma	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
255.	Chandra Bhushan Singh Memorial Mahila, Bal Evam Shravan Viklang Shiksha Evam Punarvas Sansthan, 4, Hasanpur, I.P. Extension, Near Hasanpur Depot Delhi-110 092	i)	Diploma in Hearing Language and Speech (1 Year)	Diploma	2004-05 & 05-06
256.	Medical Trust Hospital M.G. Road, Kochi - 682 016.	i)	Diploma in Hearing Language and Speech (1 Year)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08

257.	Kushabhai Thakre Composite Regional Centre for Persons with Disabilities, MOHSE, Punarvasi Bhawan, Near Old SOS Village, Bhaipurikan Marg, Post-Piplani Bhopal - 462 021.	i) Diploma in Hearing Language and Speech (1 Year)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
258.	Ayodhya Charitable Trust Near SRP, Gate No. 2, Vikas Nagar, Wanawadi Village, Pune - 411 040.	i) Diploma in Hearing Language and Speech (1 Year)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
259.	Vinayaka Mission's College of Paramedical Sciences, (Aarupada Veedu Medical College and Hospital Campus), Cuddalore Main Road, Kirunambakkam, Bahour Commune Panchayat Pondicherry - 607 402	i) Diploma in Hearing Language and Speech (1 Year)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
260.	Composite Regional Centre for persons with Disabilities Near Mahamaya Mandir, Sundernagar Dist Mandi-174 401	i) Diploma in Hearing Language and Speech (1 Year)	Diploma	2003-04 & 04-05
261.	Faculty of Allied Health Science, Vinayaka Mission's Research Foundation- Deemed University, Vinayaka Mission's Kirubananda Variyar Medical College Campus, Sankari Main Road (NH 47), Ariyanoor, Salem-636306, Tamil Nadu.	i) Diploma in Hearing Language and Speech (1 Year)	Diploma	2006-07
262.	Shri G.Y Jagtap Garuji Shikshan Prasarak Mandal, At Post Vairag, Taluka Barshi, Dist Solapur, Maharashtra	i) Diploma in Hearing Language and Speech (1 Year)	Diploma	2006-07
263.	Faculty of Allied Health Science, Vinayaka Mission's Research Foundation- Deemed University, Vinayaka Mission's Kirubananda Variyar Medical College Campus, Sankari Main Road (NH 47), Ariyanoor, Salem-636306	i) Diploma in Hearing Language and Speech (1 Year)	Diploma	2006-07
264.	Integrated Institute for the Disabled, Karaundi, B.H.U. (Basuwahi), Varanasi-221005	i) Diploma in Hearing Language and Speech (1 Year)	Diploma	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11

## VI. CLINICAL PSYCHOLOGISTS

265.	Central Institute of Psychiatry (CIP), Govt. Of India, Kaske, Ranchi-834006	i) M.Phil in Clinical Psychology (2 Years)	M.Phil Degree	2006-07 & 07-08
266.	Manipal Academy of Higher Education (Deemed University) Kasturba Medical College, Manipal-576 119.	i) M.Phil in Clinical Psychology (2 Years)	M.Phil Degree	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10

267.	Sri Ramachandra Medical College & Research Institute (Deemed University) 1, Ramachandra Nagar, Porur, Chennai - 600 116.	i) M.Phil in Clinical Psychology (2 Years)	M.Phil Degree	2004-05, 05-06, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
268.	Ranchi Institute of Neuro Psychiatry & Allied Sciences (RINPAS), Kanke, Ranchi - 834006	i) M.Phil in Clinical Psychology (2 Years)	M.Phil Degree	2006-07 & 07-08
269.	Department of Applied Psychology, University of Kolkata, Rashbehari Shiksha Prangan, 92, Acharya Praful Chandra Road, Kolkata - 700 009	i) M.Phil in Clinical Psychology (2 Years)	M.Phil Degree	2005-06 & 06-07
270.	Sweekar Rehabilitation Institute for Handicapped, Upkar Circle, Picket, Secunderabad - 500 003.	i) M.Phil in Clinical Psychology (2 Years)	M.Phil Degree	2005-06

### **VII. HEARING AID AND EAR MOULD TECHNICIANS**

271.	All India Institute for Speech & Hearing (AIISH), Manus Gangothri, Mysore - 570 006.	i) Diploma in Hearing aid and Ear Mould Technicians (1 Year)	Diploma	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
------	--	--	---------	--------------------------------------

### **VIII. REHABILITATION PSYCHOLOGISTS**

272.	National Institute for the Mentally Handicapped Manovikas Nagar, P.O. Bowenpally, Secunderabad - 500 009.	i) M.Phil in Rehabilitation Psychology (2 Years)	M.Phil Degree	2004-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
273.	The Richmond Fellowship Society (India), "ASHA", 501, 47 <sup>th</sup> Cross, 9 <sup>th</sup> Main, V Block, Jayanagar, Bangalore - 560 041.	i) M.Sc.(Psycho - Social Rehabilitation (2 Years)	Post Graduate Degree	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
274.	Department of Applied Psychology, University of Kolkata, Rashbehari Shiksha Prangan, 92, Acharya Praful Chandra Road, Kolkata - 700 009..	i) Post Graduate Diploma in Rehabilitation Psychology (1 Year)	Post Graduate Diploma	1992-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
275.	Sweekar Rehabilitation Institute for Handicapped, Upkar Circle, Picket, Secunderabad - 500 003.	i) M.Phil in Rehabilitation Psychology (2 Years) ii) Post Graduate Diploma in Rehabilitation Psychology (1 Year)	M.Phil Degree Post Graduate Diploma	05-06 & 06-07 2002-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
276.	Aligarh Muslim University Dept. of Psychology Aligarh (U.P.) - 202 002.	i) Post Graduate Diploma in Rehabilitation Psychology (1 Year)	Post Graduate Diploma	1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04 & 04-05

277.	Amity Institute of Behavioural Health & Allied Sciences (AIBHAS) Amity University, Amity Campus, Sector-125, Noida, U.P.	i) Post Graduate Diploma in Rehabilitation Psychology (1 Year)	Post Graduate Diploma	2006-07
		ii) M.Phil in Rehabilitation Psychology (2 Years)	M.Phil Degree	2006-07

**IX. REHABILITATION SOCIAL WORKERS**

278.	Holy Cross College Department of Rehabilitation Science & Special Education Tiruchirappalli - 620 002.	i) Master in Rehabilitation Sciences (2 Years)	Post Graduate Degree	1997-98, 2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
------	--	--	----------------------	--

**X. REHABILITATION PRACTITIONERS IN MENTAL RETARDATION**

279.	National Institute for the Mentally Handicapped Manovikas Nagar, PO-Bowenpally, Secunderabad - 500 009.	i) Bachelor in Mental Metardation (3 Years)	Degree	1994-05, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99 & 99-00
		ii) Bachelor in Rehabilitation Services (Mental Retardation) (4 Years)	Degree	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04 & 04-05

**XI. ORIENTATION AND MOBILITY SPECIALISTS**

280.	National Institute for the Visually Handicapped, 116, Rajpur Road, Dehradun - 248 001	i) Orientation and Mobility Training Course (six months course)	Certificate	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 & 99-00
281.	The YMCA College of Physical Education Nandam, Chennai - 600 035.	ii) Bachelor in Mobility Science (1 Year)	Degree	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10

**XII. COMMUNITY BASED REHABILITATION PROFESSIONALS**

282.	National Institute for the Mentally Handicapped, Manovikas Nagar, P.O. Bowenpally, Secunderabad-500009	i) Post Graduate Diploma in Early Intervention (Mental Retardation) (1 Year)	P.G Diploma	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07 & 07-08
283.	Shishu Sarathi Centre for Rehabilitation and Training for Multiple Disability, Off. Ramakrishna Mission Road, Birubai, Guwahati - 781 016.	i) Diploma in Community Based Rehabilitation (1 Year)	Diploma	2002-03 & 03-04
284.	MANOVIKAS Special for Mentally Handicapped Pallisserikkal Post, Sasthamcotta, Kollam - 690 521.	i) Diploma in Community Based Rehabilitation (1 Year)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06 & 06-07
285.	Shanta Memorial Rehab. Centre 108-D, Master Canteen Building, Station Square, Unit-III Bhubaneswar - 751 001.	i) Diploma in Community Based Rehabilitation (1 Year)	Diploma	2002-03 03-04 & 04-05

286.	Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Education, Sri Ramakrishna Vidyalaya Post, Coimbatore - 641 020.	i) Diploma in Community Based Rehabilitation (1 Year)	Diploma	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
287.	Viklang Kendra Rural Research Society, 13, Lukerganj Allahabad - 212 001.	i) Diploma in Community Based Rehabilitation (1 Year)	Diploma	2003-04, 04-05, 05-06 & 06-07
288.	Indian Institute of Cerebral Palsy, P-35/1, Taratolla Road, Kolkata - 700 088.	i) Diploma in Community Based Rehabilitation (1 Year)	Diploma	2002-03, 03-04 & 04-05
289.	Bangalore University CBR Network (South Asia), 134, 1 st Block, 6 th Main, 3 rd Phase, Bauashankari III Stage, Bangalore-560 085	i) P.G. Diploma in Community Based Rehabilitation -Planning & Management (2 Years)- Distance Education Mode ii) Diploma in Community Based Rehabilitation (1 Year)	P.G. Diploma Diploma	2004-05 & 05-06 2004-05 & 05-06
290.	Paschim Banga Rajya Pratibandhi Sammilani 4, Santoshpur Avenue Kolkata - 700 075	i) Diploma in Community Based Rehabilitation (1 Year)	Diploma	2005-06 & 06-07
291.	Rawttapukam Hemerijckxx Rural Centre, Thiruchitrambalam Post - 605 111. Villupuram Dist, Tamilnadu	i) Diploma in Community Based Rehabilitation (1 Year)	Diploma	2005-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
292.	Pragathi Charities Plot No. 62, Wood Complex, Near Ayyappa Temple, Nellore-524 004	i) Diploma in Community Based Rehabilitation (1 Year)	Diploma	2005-06
293.	Association for Welfare of the Handicapped 17/194-A, M. Square Complex, Pavamani Road Calicut-673 001	i) Diploma in Community Based Rehabilitation (1 Year)	Diploma	2005-06 & 06-07

### XIII. REHABILITATION COUNSELLOR / ADMINISTRATOR

294.	National Institute for the Mentally Handicapped Manovikas Nagar, P.O. Bowenpally, Secunderabad - 500 009.	i) Master in Disability Rehabilitation Administration (2 year)	Post Graduate Degree	2004-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10 & 10-11
295.	Thakur Hari Prasad Institute of Research & Rehabilitation for the Mentally Handicapped, Vivekananda Nagar, Dilsukh Nagar, Hyderabad - 500 660	ii) Post Graduate Diploma in Developmental Rehabilitation (1 Year)	PG Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10

### XIV. PROSTHETICS AND ORTHOTISTS/ REHABILITATION TECHNICIANS

296.	National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Bon-Hooghly, B.T. Road, Kolkata - 700 090.	i) Bachelor in Prosthetic & Orthotics (4½ Years)	Degree	2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
------	--	--	--------	--



		i) Diploma in Prosthetics & Orthotics Engineering (2 ½ Years)	Diploma	(Notified in the Schedule in the Year 1993) 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99 & 99-00
297.	Department of Physical Medicine & Rehabilitation Safdarjung Hospital, Ansari Nagar, New Delhi - 110 016.	i) Diploma in Prosthetic & Orthotics Engineering (2½ Years)	Diploma	(Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993) 1995-97, 97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
298.	Govt. Institute of Rehabilitation Medicine, K.K. Nagar, Chennai - 600 083.	i) Diploma in Prosthetic & Orthotics (2½ Years)	Diploma	(Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993) 1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
299.	National Institute of Rehabilitation Training and Research, Olatpur, P.O. Bairoi, Distt. Cuttuck - 754 010	i) Diploma in Prosthetics & Orthotics Engineering (2 ½ Years)  ii) Bachelor in Prosthetic & Orthotics (2 Years)	Diploma  Degree	(Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993) 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 & 98-99  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
300.	All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation, Haji Ali Park, Khadye Marg, Mahalaxmi, Mumbai - 400 034.	i) B.Sc Prosthetic & Orthotics (3 Years)  ii) Bachelor in Prosthetic & Orthotics (4½ Years)	Degree  Degree	(Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993) 1995-96, 96-97, 97-98, 98-99 & 99-00  2000-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 & 09-10
301.	Schiffelin Leprosy Research and Training Centre, Karigiri, S.L.R. Sanatorium P.Q., North Arcot Distt. Tamil Nadu - 632 106.	i) Prosthetic Technician Course (18 months)		Notified vide Notification No. S.O.288(E) dated 28 <sup>th</sup> April, 1993

		ii) Diploma in Prosthetic & Orthotics Engineering (2½ Years)	Diploma	1995-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
302.	Indian Spinal Injuries Centre Sector - C, Vasant Kunj, New Delhi- 110 070	i) Master in Prosthetic & Orthotics (2 Years)	Post Graduate Degree	2005-06
303.	Indian Institute of Health Education & Research, Health Institute Road, Near Central Jail, Beur, Patna - 800 001.	i) Bachelor in Prosthetic & Orthotics (4½ Years)	Degree	1998-99 & 99-00
304.	Pandit Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped (Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India) 4, Vishnu Digamber Marg New Delhi- 110 002	i) Bachelor in Prosthetic & Orthotics (4½ Years)	Degree	2004-05 & 05-06
305.	Mobility India Post Box No. 7812, 1 st & 1 st 'A' Cross J.P. Nagar, 2 nd Phase, Bangalore- 560 078	i) Certificate Course in Rehabilitation Therapy Assistant (One year)	Certificate	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
306.	Christian Medical College, P.O. Thorapudi, Vellore - 632 002.	i) Diploma in Prosthetic & Orthotics Engineering (2½ Years)	Diploma	1997-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
307.	Kushabhau Thakre Composite Regional Centre for Persons with Disabilities Punarwas Bhawan, Near Old SOS Village Khajurikalan Marg, Post-Piplani Bhopal - 462 021.	i) Certificate in Prosthetic & Orthotics (1 Year)	Certificate	2003-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 & 08-09
308.	Nataraj Research Centre & Training College PNR Society for relief & Rehabilitation of the Disabled, 51, Vidyanagar, - Bhavnagar - 364 002.	i) Certificate in Prosthetic & Orthotics (1 Year)	Certificate	2002-03, 03-04, 04-05, 05-06 & 06-07
309.	Composite Regional Centre for persons with Disabilities (Ministry of Social Justice & Empowerment) Bemina, Bye pass (Near Women's Polytechnic College) Srinagar-190018	i) Certificate in Prosthetic & Orthotics (1 Year)	Certificate	2003-04, 04-05, 05-06 & 06-07
310.	Paraplegia & Training Centre & Physiotherapy College, Civil Hospital Campus, Asharva, Ahmedabad- 380016	i) Bachelor in Prosthetic & Orthotics (4½ Years)	Degree	2005-06, 06-07 & 07-08. "

[F. No. 25-08/2004-DD.-III]

G. N. PEGU, Jt. Secy.